



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7—अगस्त 13, 2010 (श्रावण 16, 1932)

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7—AUGUST 13, 2010 (SRAVANA 16, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. ए-22012/1/2010-पीएमई--प्रधान मंत्री के जन-सूचना ढांचा एवं नवप्रवर्तन सलाहकार के कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप, श्रीमती कल्पना अवस्थी, आई.ए.एस.(उ.प्र. : 90) ने दिनांक 19 जुलाई, 2010 (अपराह) से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2010

सं. आरएस-3/4/1/2010/60-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्य उप-निदेशक (पीएसएस) श्रीमती संगीता को 16 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 8000/- रुपये

के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस-3/4/1/2010/61-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निजी सचिव के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 16 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :-

1. श्रीमती रविन्दर चोपड़ा
2. श्रीमती उर्मिला देवी गुलेरिया
3. श्रीमती पुष्पा सभ्रवाल

4. श्री राजीव कठपाल
5. श्री उपेन्द्र सिंह भंडारी
6. श्री संजय कुमार
7. श्रीमती अल्का सैनी

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस-3/5/1/2010/62-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक (भाषांतरण), श्रीमती सुमन माला ठाकुर को 16 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड-4 तथा 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक (भाषांतरण) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस-3/7/1/2010/63-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संपादक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 16 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (सं. एवं अनु.) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :-

1. श्री मनोज कुमार
2. श्री संजय देव
3. श्री जय शंकर पांडे
4. श्री राजेश कुमार भारद्वाज
5. श्री राजीव कुमार बांगिया
6. श्री कुलदीप सिंह अहलावत
7. श्रीमती निरूपा बेलवाल
8. श्री शैलेन्द्र कुमार
9. श्री राघवेन्द्र राव
10. श्री देवेन्द्र सिंह पाल
11. श्री राकेश कुमार दीक्षित
12. श्री सरवेश नारायण

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस-3/2/1/2010/64-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (लार्डिस), श्रीमती मीना कांडवाल को 16 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 7600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. आरएस-3/8/1/2010/65-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार को 20 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जनवरी 2010

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6361/एन-I--श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं रहने पर निम्नलिखित व्यक्तियों, जिन्हें नीचे उल्लिखित पदों पर उनके वैयक्तिक स्टाफ में सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त गया था, को 21 दिसम्बर 2009 से 4 जनवरी 2010 तक 15 दिन की परिसमापन-अवधि स्वीकृत की जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं:-

1. श्री दीपक चोपड़ा, लोक सभा में विपक्ष के नेता के सचिव।
2. श्री जे. सी. जोशी, सहायक निजी सचिव
3. श्री सिद्धार्थ नैथानी, सहायक निजी सचिव

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6362/एन-I--श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं रहने पर श्री प्रकाश चन्द्र, जिन्हें लोक सभा में विपक्ष के नेता के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 21 दिसम्बर 2009 से 19 जनवरी 2010 तक 30 दिन की परिसमापन-अवधि स्वीकृत की जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6363/एन-I--श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं रहने पर श्री के.एस.सी.

एस.वी.पी. गांधी, उप प्रबंधक, बी.एस.एन.एल, कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली, जिन्हें लोक सभा में विपक्ष के नेता के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 21 दिसम्बर 2009 से 4 जनवरी 2010 तक 15 दिन की परिसमापन-अवधि स्वीकृत की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.10.1995 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. प्रकीर्ण 54/95 द्वारा यथा-अंगीकृत दिनांक 05.01.1994 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (पे-II) के निबन्धनों के अनुसार, श्री के.एस.सी.एस.वी.पी. गांधी को 5 जनवरी, 2010 से 5 मार्च, 2010 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 6 और 7 मार्च, 2010 को शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग, अर्थात् बी.एस.एन.एल कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6364/एएन-I--निम्नलिखित व्यक्तियों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में, संबंधित संसदीय समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	समिति तथा सभापति का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री रमा शंकर पांडेय	ऊर्जा संबंधी समिति (श्री मुलायम सिंह यादव)	01.09.2009
2.	श्री रवीन्द्र कुमार	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (श्री राव इंद्रजीत सिंह)	10.09.2009

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और संबंधित समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम संबंधित के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. एफ-22/1/जीएन-6365/2010/एएन-I--श्री पवन कुमार झा की संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II- में परीक्षा-अवधि 28.04.2009 से 27.04.2010 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

2. यह दिनांक 10 मई, 2007 की अधिसूचना सं. एफ. 15/7/जीएन-5889/एएन-I/2010 के क्रम में है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. एफ-15/08/2009/जीएन-6366/एएन-I--अध्यक्ष महोदया, सीमा सुरक्षा बल के एसआई/आर एम, श्री दिनेश चन्द्र पांडेय को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (श्री कड़िया मुंडा) के सहायक निजी सचिव के रूप में 4 जनवरी, 2010 के पूर्वार्द्ध से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

2. माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (श्री कड़िया मुंडा) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री दिनेश चन्द्र पांडेय की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा के वर्तमान माननीय उपाध्यक्ष के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6367/एएन-I--श्री जसवंत सिंह के लोक लेखा समिति के सभापति पद से त्याग-पत्र के परिणामस्वरूप राज्य सभा सचिवालय के वरिष्ठ कार्यकारी सहायक, श्री बृजभान सिंह, जिन्हें लोक लेखा समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को 1 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2010 तक 15 दिन की परिसमापन अवधि स्वीकृत की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.10.1995 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. प्रकीर्ण 54/95 द्वारा यथाअंगीकृत दिनांक 05.01.1994 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (पे-II) के उपबंधों के अनुसार, श्री बृजभान सिंह को 16 जनवरी 2010 से 29 जनवरी 2010 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 30 जनवरी और 31 जनवरी 2010 को शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग, अर्थात् राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. एफ-15/01/2010/जीएन-6368/एएन-I--अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पद और वेतनमान में लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-विस्तारी आधार पर 01 जनवरी 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री सतीश सी. गुप्ता	लोक सभा में विपक्ष की नेता के निजी सचिव	37,400-67,000/- रु. (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रु.
2.	श्री कुलभूषण नागर	लोक सभा में विपक्ष की नेता के अतिरिक्त सचिव	15,600-39,100/- रु. (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रु.

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ.-15/01/2010/जीएन-6369/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री विजय प्रकाश द्विवेदी को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 8 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री विजय प्रकाश द्विवेदी की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ.-15/13/2009/जीएन-6370/एएन-1--श्रीमती सुषमा स्वराज के विदेशी मामलों संबंधी समिति के सभापति पद से त्याग-पत्र के परिणामस्वरूप श्री कुलभूषण नागर, जिन्हें सेवाधृति और सह-विस्तारी आधार पर उनके वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 31 दिसम्बर, 2009 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2010

सं. एफ.-15/01/2010/जीएन-6371/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, आयकर निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सहायक निदेशक, श्री अनिल कुमार दुबे को 15,600--39,100/- रुपये ग्रेड पे (पीबी-3) + 5,400/- रुपये के वेतनमान में लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 8 जनवरी, 2010 के अपराह्न से सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री अनिल कुमार दुबे की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2010

सं. पीएफ-766-आर(3)/जीएन-6372/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जे. सी. शर्मा, अपर निदेशक (लॉर्ड्स) 31 जनवरी, 2010 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-34-आर(3)/जीएन-6373/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री गोपाल सिंह, निदेशक 31 जनवरी, 2010 के (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-45-आर(3)/जीएन-6374/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बी. डी. स्वेन, निदेशक 31 जनवरी, 2010 के (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-47-आर(3)/जीएन-6375/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस. बी. अरोड़ा, निदेशक 31 जनवरी, 2010 के (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-134-आर(3)/जीएन-6376/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. के. भटनागर, उप सचिव 31 जनवरी, 2010 के (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-263-आर(3)/जीएन-6377/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री राम स्वरूप, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी 31 जनवरी, 2010 के (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2010

सं. पीएफ-13-आर(3)/जीएन-6378/एएन-1/2010--इस सचिवालय की दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. जीएन-5575 के क्रम में श्री ए. मुखोपाध्याय (आई ए एंड एस : 1980), जो वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, की सेवाएं 29 नवम्बर, 2009 से 28 नवम्बर, 2010 तक और एक वर्ष के लिए, अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6379/एएन-I--निम्नलिखित व्यक्तियों को 15,600--39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में संबंधित संसदीय समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	समिति तथा सभापति का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री रवि एम.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) (श्री ए. के. एस. विजयन)	07.10.2009
2.	श्री गजेन्द्र शर्मा	विदेशी मामलों संबंधी समिति (श्री यशवंत सिन्हा)	06.01.2010

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और संबंधित समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम संबंधित समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2010

सं. पीएफ-156-आर(3)/जीएन-6380/एएन-I/2009--इस सचिवालय की अधिसूचना सं. पीएफ-1359(3)/जीएन-4818/एएन-I/2002 दिनांक 18 सितम्बर, 2002 के क्रम में श्री खखाई जाऊ, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी की परीक्षा अवधि 17.09.2004 से 28.01.2009 तक बढ़ायी गयी मानी जाती है।

2. उन्होंने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में अब अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2010

सं. पीएफ-1759-आर(3)/जीएन-6381/एएन-I/2009--कैबिनेट सचिवालय के एस आर ए (टेक.), श्री पल्लव बसक, जो प्रतिनियुक्ति आधार पर सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं, को 5 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् कैबिनेट सचिवालय को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. एफ-15/15/जीएन-6382/एएन-I/2007--अध्यक्ष महोदया, लोक सभा सचिवालय में दिनांक 26 अप्रैल, 2009 को हुई प्रारंभिक परीक्षा तथा दिनांक 02 जून, 2009 से 07 जून, 2009 तक हुई मुख्य परीक्षा एवं 18 जुलाई, 2009 को हुए वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर श्री अजित कुमार साहू का कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 15,600--39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में, स्थानापन्न रूप में, 14 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. वह 14 जनवरी, 2010 से 13 जनवरी, 2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एंड सी.एस. आदेश सं. पी डी ए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 22 फरवरी 2010

सं. पीएफ-1759-आर(3)/जीएन-6383/एएन-I/2009--दिनांक 15 फरवरी, 2010 की पूर्व अधिसूचना सं. पीएफ.1759-आर(3)/जीएन-6381/एएन-I/2009 में आंशिक संशोधन करते हुए कैबिनेट सचिवालय के एस आर ए (टेक.), श्री पल्लव बसक, जो प्रतिनियुक्ति आधार पर सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं, को 15 फरवरी, 2010 की बजाय 22 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् कैबिनेट सचिवालय को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6384/एएन-I--निम्नलिखित व्यक्तियों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में संबंधित संसदीय समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	समिति तथा सभापति का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आर. सुरेन्द्र नायर	लोक लेखा समिति (श्री गोपीनाथ मुंडे)	06.01.2010
2.	सुश्री बीना सिंह	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (श्री रेवती रमण सिंह)	01.12.2009

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और संबंधित समिति के वर्तमान सभापति के

प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम संबंधित समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

को क्रमशः मिलाद-उन-नबो, रविवार और होली की छुट्टी होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् बी. एस. एन. एल., कापॉरेट कार्यालय, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6385/एएन-I--आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति प्रभाग), भारत सरकार में निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री के. पी. मुरलीधरन को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में विशेषाधिकार समिति के सभापति (श्री पी. सी. चाको) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 30 दिसम्बर, 2009 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 2 मार्च 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6388/एएन-I--सभापति, शहरी विकास संबंधी समिति (श्री शरद यादव) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव श्री राज कुमार की सेवाएँ 31 जनवरी, 2010 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

2. श्री के. पी. मुरलीधरन की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और विशेषाधिकार समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम विशेषाधिकार समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-06-आर(3)/जीएन-6389/एएन-I/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. सी. आहूजा, अपर सचिव, 28 फरवरी, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/01/2010/जीएन-6386/एएन-I--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में श्री राजिन्दर सिक्का को लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में, सह-विस्तारी आधार पर 1 फरवरी, 2010 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. श्री राजिन्दर सिक्का की लोक सभा में विपक्ष की नेता (श्रीमती सुषमा स्वराज) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति, सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष की वर्तमान नेता के प्रसादपर्यन्त होगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6390/एएन-I--सुश्री विष्मयी कुमारी को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति (श्री कल्याण बनर्जी) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 3 दिसम्बर, 2009 से नियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री विष्मयी कुमारी की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर कोयला और इस्पात संबंधी समिति के वर्तमान सभापति (श्री कल्याण बनर्जी) के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2010

सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6387/एएन-I--दिनांक 3 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं. एफ-15/10/2009/जीएन-6363/एएन-I में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी, उप प्रबन्धक, बी. एस. एन. एल. कापॉरेट कार्यालय, नई दिल्ली, जिन्हें लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लालकृष्ण आडवाणी) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर नियुक्त किया गया था, को पूर्व में स्वीकृत 5 जनवरी, 2010 से 5 मार्च, 2010 तक के 60 दिनों के अर्जित अवकाश को कम करके 53 दिन का, अर्थात् 26 फरवरी, 2010 तक किया जाता है तथा 27 और 28 फरवरी, 2010 और 1 मार्च, 2010

दिनांक 11 मार्च 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6391/एएन-I--आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली में निजी सचिव, श्री के. पी. मुरलीधरन जो वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशेषाधिकार समिति के सभापति (श्री पी. सी. चाको) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 11 मार्च, 2010 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल

भाग अर्थात् आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 23 मार्च 2010

सं. पीएफ-1029-आर(2)/जीएन-6392/एएन-I/2010--निम्नलिखित अधिकारियों ने निजी सचिव के ग्रेड में परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक रूप पूरी कर ली है:--

1. श्री सत्य वीर सिंह
2. श्रीमती सविता सीकरी
3. श्री जी. वासुदेवन

2. यह अधिसूचना 9 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5925 ए 13 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या जीएन 5903 के क्रम में है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 26 मार्च 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6393/एएन-I--श्री राजेन्द्र नाथ ए. उ. को 15,600--39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये वेतनमान में विशेषाधिकार समिति के सभापति (श्री पी. सी. चाको) वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 12 मार्च, 2010 नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राजेन्द्र नाथ ए. एस. को वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति वाधृति के आधार पर और विशेषाधिकार समिति के वर्तमान सभापति श्री पी. सी. चाको) के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ ह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम विशेषाधिकार समिति के सभापति का निजी सचिव गा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 मार्च 2010

सं. पीएफ-1328-आर(3)/जीएन-6394/एएन-I/2010-अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लेने पर श्री वेद प्रकाश शर्मा-II, संयुक्त निदेशक (नुवाद), 31 मार्च, 2010 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-132-आर(3)/जीएन-6395/एएन-I/2010-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती कमलेश पाहवा, उप सचिव 31 मार्च, 2010 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-228-आर(3)/जीएन-6396/एएन-I/2010-निम्नलिखित व्यक्तियों ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है:--

1. श्री शिवानंद
2. श्री रमेश चंद वधवा
3. श्री टीका राम नौड़ियाल
4. श्रीमती मधु भूयानी
5. श्री कृष्ण सी. पांडेय
6. श्री वीणा धर ध्यानी
7. श्री बी. गणपति
8. श्री अरूण कुमार
9. श्रीमती अंजू कुकरेजा
10. श्रीमती एल. नेमजालहिंग हाँकिप
11. श्री श्रीपाल
12. श्री रमेश चंद अहेरिया

2. यह दिनांक 3 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5874, जीएन-5875, जीएन-5876 तथा 18 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. जीएन-6118 के क्रम में है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. पीएफ-774-आर(3)/जीएन-6397/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदय, 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के पद पर कार्यरत, श्री सुनील केसरी, जिन्हें दिनांक 20 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं. एफ-23/11/2009/जीएन-6271/एएन-I के द्वारा तदर्थ आधार पर अपर निदेशक (लार्डिस) के रूप में नियुक्त किया गया था, को रु. 15,600-39,100/-

(पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपये के वेतनबैंड में अपर निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नियमित आधार पर 11 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-775-आर(3)/जीएन-6398/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत संयुक्त निदेशक (लार्डिस) श्रीमती अल्पना त्रिपाठी को रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में अपर निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 11 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-799-आर(3)/जीएन-6399/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशकों (लार्डिस) को रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 11 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:-

1. श्री संजय कुमार
2. डॉ. रणबीर कुमार

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-818-आर(3)/जीएन-6400/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड कार्यरत निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों को रु. 15,600-39,100 (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 11 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:-

1. श्री राजेश खुराना
2. श्री बी. के. भार्गव

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-844-आर(3)/जीएन-6401/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 9,300-34,800 (पीबी-2) + ग्रेड पे 4,800 रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित शोध/संदर्भ सहायकों को रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में 11 अप्रैल 2010 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करती हैं :-

1. श्रीमति नीलम बलहारा
2. श्रीमती लक्ष्मी श्रीधर

2. वे शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में 11 अप्रैल, 2010 से 10 अप्रैल, 2012 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर. एंड सो.एस. आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होंगी।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-755-आर(3)/जीएन-6402/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत श्रीमती कल्पना शर्मा, अपर निदेशक (लार्डिस) को रु. 37,400-67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतन बैंड में निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 11 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-952-आर(3)/जीएन-6403/एएन-1/2010--डा. एस. प्रभाकर, संसदीय रिपोर्टर, ग्रेड-I, जिन्हें दिनांक 3 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5846 के द्वारा तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, को संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-I के ग्रेड में 22.06.2009 से प्रत्यावर्तित किया जाता है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. एफ-15/13/2009/जीएन-6412/एएन-1--श्री डी.के. शर्मा को रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में शहरी विकास संबंधी समिति के सभापति (श्री शरद यादव) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 6 अप्रैल, 2010 से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री डी.के. शर्मा की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर तथा शहरी विकास संबंधी समिति के वर्तमान सभापति (श्री शरद यादव) के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम शहरी विकास संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2010

सं. पीएफ-1489-आर(3)/जीएन-6415/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत श्री पन्नालाल, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) को रु. 15,600-39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में अपर निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में 27 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. पीएफ-249-आर(3)/जीएन-6416/एएन-I/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जय प्रकाश, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी 30 अप्रैल, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

5. श्रीमती जयोचामयी सिन्हा

6. श्री लालकिथांग

7. श्री सुन्दर प्रसाद दास

8. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. पीएफ-90-आर(3)/जीएन-6406/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों को 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में अपर निदेशक के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 15 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :-

1. श्रीमती रीटा जेलखानी
2. श्री जगदीश प्रसाद
3. श्री होती लाल
4. श्री ए.के. कौशिक
5. श्री अजय कुमार मुंशी

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

सं. पीएफ-61-आर(3)/जीएन-6405/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित अपर निदेशकों को 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतन बैंड में निदेशक के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 15 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :-

1. श्रीमती नीरा सिंह
2. श्री एन.एस. हुड्डा
3. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

सं. पीएफ-154-आर(3)/जीएन-6408/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव, के पद पर कार्यरत, डा. सत्य प्रकाश, जो वर्तमान में ऋण वसूली अधिकरण-II, मुंबई में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतनमान में उप सचिव के ग्रेड में 15 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करती है। वह उप सचिव के ग्रेड में श्री राम किशन से कनिष्ठ किन्तु सुश्री अमिता वालिया से वरिष्ठ होंगे।

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

सं. पीएफ-195-आर(3)/जीएन-6409/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, श्रीमती गीता परमार जिन्हें 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. जीएन-6310 के द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त किया था, को रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 15 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

सं. पीएफ-196-आर(3)/जीएन-6410/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100/- रु. (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रु. के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 15,600-39,100/- रु. (पीबी-4) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 15 अप्रैल 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :-

1. श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी
2. श्री जी.सी. डोभाल
3. श्री रामस्वरूप बांगा
4. श्री राकेश भारद्वाज
5. श्रीमती एम्मा सी. बरवा

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

सं. पीएफ-281-आर(3)/जीएन-6411/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, रु. 9,300--34,800/- (पीबी-2) + ग्रेड पे 4,800/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों

1. श्री विशम्भर दयाल
2. श्री एम.एल.के. राजा
3. श्री राम किशन
4. सुश्री अमिता वालिया

को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 15 अप्रैल, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:--

1. श्री जिनसुऐनलियन गुइते
2. श्रीमती सविता भाटिया
3. श्री तपन कुमार कोर
4. श्री सुरेश चन्द्र

2. वे कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 15 अप्रैल, 2010 से 14 अप्रैल, 2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एंड सीएस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

एन. सी. गुप्ता, अपर निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर-560231, दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. 2/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत ऑकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में श्री आशिश जोशी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 12.04.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में, श्री दिनेश कुमार को क्रय व भंडार अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 01.04.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2010

सं. एफ-6(1623)/94-प्रशा.-I--डॉ. प्रणब सेन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में भारतीय मुख्य सांख्यिकी शास्त्री तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के अपने समवर्ती कार्यभार की समयावधि पूरी करने पर दिनांक 30.06.2010 (अपराह्न) से योजना आयोग में प्रधान सलाहकार के पद पर कार्यभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2010

सं. एफ.-6(2134)/2010-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पत्र संख्या 7/9/2010-ईओ (एसएम-1) दिनांक 31 मई, 2010 के तहत दिए गए एसीसी के अनुमोदन के अनुसरण में, श्रीमती वंदना कुमारी जेना, आईएस (उड़ीसा : 79) ने योजना आयोग में सलाहकार के रूप में दिनांक 05 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2007-प्रशा.-V/IV-वरिष्ठता कोटा के आधार वर्ष 2007 के लिए अनुभाग अधिकारियों (सीएसएस) के चयन सूची में नाम शामिल होने के उपरान्त योजना आयोग के श्री बी. के. वली, नियमित सहायक (सीएसएस), जो तदर्थ आधार पर वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न है, को योजना आयोग में रूप 9,300--34,800/- + 4,800/- रूप के ग्रेड वेतन के पे बैंड-2 में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के रूप में दिनांक 20.07.2010 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. प्र.मं.के सलाह-का.आ./07/2010-पीआईआईआई--एसीसी के अनुमोदन के अनुसरण में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 21/4/2010-ईओ(एसएम-1) दिनांक 16 जुलाई, 2010 के तहत संप्रेषितानुसार किया गया है, सुश्री कल्पना अवस्थी, भा.प्र.से. (उ.प्र. :90) ने प्रधानमंत्री के सलाहकार, लोक सूचना अवसंरचना और नवप्रवर्तन के कार्यालय में वेतन बैंड, रूप 37,400--67,000/- (पी.बी.-4) + ग्रेड वेतन रूप 10,000/- में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में 19 जुलाई, 2010 को अपराह्न से और 28.02.2012 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यभार संभाल लिया है।

एस. बोस, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. ए-32013/2/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में कार्यरत श्री मिस्बाहउद्दीन सिद्दिकी, सहायक विधायी परामर्शी (उर्दू) को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के कथित खंड में उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) के पद पर, वेतन बैंड-3 में रूप 15,600--39,100/- + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में, दिनांक 13 जुलाई, 2010 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2010

सं. ए-37012/3/2008-वि.सा.प्र. (प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में सहायक संपादक श्री जुगल किशोर को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तारीख 05 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से 04 अक्टूबर, 2010 तक, तीन मास की अवधि के लिए या अगले आदेश तक 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड (वेतन बैंड-3) + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री जुगल किशोर को संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जुलाई 2010

सं. 14016/1/2010-यूटीएस-II--गृह मंत्रालय में अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत श्री मोहिन्दर सिंह, निरीक्षक (डी-1/740), दिल्ली पुलिस को 9,300--34,800/- रुपए (ग्रेड वेतन-4,800/- रुपए) के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

2. तथापि उक्त आदेश को लागू करने से पहले दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करे ले कि श्री मोहिन्दर सिंह पर सतर्कता की दृष्टि से कोई मामला न रहे।

3. दिल्ली पुलिस के निरीक्षक श्री मोहिन्दर सिंह की दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति सिविल रिट याचिका सं. 4210/2007-जगदीश चन्द बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अध्यधीन होगी। दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में श्री हरबंस लाल अरोड़ा (डी-1/161) की नियुक्ति भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं. 11356-62/2006 के परिणाम के अध्यधीन है।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-32014/6/2010-प्रशा.-I (क)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के उप संवर्गों में निम्नलिखित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2010-सीएस-II (ए) के चयन सूची वर्ष 2010 के लिए प्रधान

स्टाफ अधिकारी के अपग्रेड ग्रेड में उनके नामों को शामिल किए जाने पर दिनांक 01 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपए ग्रेड वेतन 8,700/- रुपए) में प्रधान स्टाफ अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क्रम संख्या	गृह मंत्रालय का उप संवर्ग जहाँ अधिकारी नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं
----------	-----	--	---

सर्वश्री

1.	सुनील कुमार मदान	3	मंत्रिमंडल सचिवालय (आरबी)
2.	डी. बालानुजन	4	प्रधानमंत्री कार्यालय
3.	सुनील कुमार	8	गृह मंत्रालय (मुख्य)

2. प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने पर उपर्युक्त अधिकारियों को इस मंत्रालय के उन्हीं उप संवर्गों में तैनात किया जाता है जहाँ वे वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. 14031/1/2007-यूटीएस-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री पुरुषोत्तम दास 30 जून, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2010-संवर्ग (ए.डी.-IV)--इस विभाग के दिनांक 07 जुलाई, 2010 के कार्यालय आदेश संख्या 32014/1/2010 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) की वर्ष 2006 की चयन सूची में उनको शामिल कर लेने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदधारियों को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में, 4,800/- रुपए के ग्रेड पे सहित वेतन बैंड-2 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.)

के अनुभाग अधिकारी (ग्रुप-बी राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति का तरीका	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री देश राज सिंह	एस क्यू/2006	01.07.2006
2.	श्री सुखबीर सिंह	एस क्यू/2006	01.07.2006

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2010

सं. ए-32013/5/2010-प्रशा.-I--वर्ष 2005 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा को प्रधान निजी सचिव को चयन सूची में शामिल करने के परिणामस्वरूप और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2008-सी.एस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, सर्वश्री राजकुमार अरोरा और रतन लाल पी.पी.एस. (तदर्थ), जो वर्तमान में सी.आई.सी. में तैनात हैं, को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संवर्ग में, 6,600/- रुपये के ग्रेड पे सहित वेतन बैंड-3, रुपये 15,600--39,100/- में नियमित प्रधान निजी सचिव के रूप में दिनांक 18.03.2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करती हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. 14015/19/2009-अ.भा.से. (I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन सूची वर्ष 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन राजस्थान के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 16.06.2010 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अधीन 14 जुलाई, 2010 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली राजस्थान संवर्ग के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची अधिसूचित करती हैं :--

चयन सूची-2009

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	सुरेश चन्द्र दिनकर	16.06.1958
2.	आर. एस. जाखड़	04.05.1955
3.	गिरीराज सिंह कुशवाहा	31.07.1958

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/19/2009-अ.भा.से. (I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, चयन सूची वर्ष 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अधीन राजस्थान संवर्ग में आबंटित करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
	सर्वश्री
1.	सुरेश चन्द्र दिनकर
2.	आर. एस. जाखड़
3.	गिरीराज सिंह कुशवाहा

2. माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर खण्डपीठ के दिनांक 05.07.2010 के अंतरिम आदेश के अनुसार उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति, श्री राम करण अमेरिया बनाम राजस्थान राज्य और अन्य द्वारा दायर एसबीसीडब्ल्यूपी सं. 8286/2010 में निर्णय के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. 14015/14/2009-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन महाराष्ट्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में, पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 3 अप्रैल, 2010 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अधीन 24 जून, 2010 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली संयुक्त महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती हैं :--

चयन सूची-2009

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
*1.	वाई. डब्ल्यू. जेदम (अ.ज.जा.)	18.01.1956
2.	पी. एम. महाजन	20.12.1955

*क्र. सं. 1 पर अधिकारी का नाम राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की अनुशासनिक कार्यवाहियों/मंजूरी की अनापत्ति अनंतिम सूची में शामिल किया गया है।

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका सं. 1803-1806/2010 (एस-के.प्र.अ.) और बैच के परिणाम के अधधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/14/2009-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(5) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर राज्य सिविल सेवा, महाराष्ट्र के एक सदस्य श्री पी. एम. महाजन को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अधीन महाराष्ट्र संवर्ग आबंटित करती हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका सं. 1803-1806/2010 (एस-के.प्र.अ.) और बैच के परिणाम के अधधीन होगी।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 23012/04/2010-अ.भा.से.-III--वर्ष 2003 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भा.प्र.से. में नियुक्त और हरियाणा के संवर्ग में रखी गई श्रीमती अशीमा गर्ग, भा.प्र.से. (हरियाणा : 2004) को अपना नाम "अशीमा गर्ग" से बदलकर "अशीमा बरार" करने की अनुमति दे दी गई है। तदनुसार, उन्हें सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए श्रीमती अशीमा बरार के रूप में जाना जाएगा।

शौकत अली, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2010

सं. 19/पीबी-I-2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री डोमनिक टिकी (जन्म तिथि : 16.06.1950), सरकारी सेवा से 30 जून, 2010 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I एवं III)

कार्यालय : उप न्यायाचार-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. डी-III/460/सी एफ-51ए/2009--राष्ट्रपति ने श्री एस. वासुदेवन को बेंगलूरु में मंगोलिया के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री एस. वासुदेवन का कौंसली क्षेत्राधिकार होगा : कर्नाटक राज्य।

दिनेश भाटिया, उप निदेशक एवं उप न्यायाचार-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2010

सं. 70 : (फा.सं. 50/150/2008-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त कांडर के निम्नलिखित नियमित सहायकों को राजस्व विभाग में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से तथा अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	अनुभाग अधिकारी (तदर्थ आधार पर) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
सर्वश्री/श्रीमती		
1.	संजय रावत	09.07.2010 (पूर्वाह्न)
2.	राम प्रसाद मौर्य	08.07.2010 (अपराह्न)
3.	बी. डी. चावला	08.07.2010 (अपराह्न)
4.	शाह फैज अहमद	09.07.2010 (पूर्वाह्न)
5.	सुश्री सरिता शर्मा	08.07.2010 (अपराह्न)

2. इन अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति प्रारंभ में 31.12.2010 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी। उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होंगी :-

- तदर्थ नियुक्ति, एक अंतःकालीन व्यवस्था होने के कारण उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का हक प्रदान नहीं करती।
- तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि वरीयता कोटे/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या अगले आदेशों तक।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2010

सं. 71 : (फा.सं. ए-19012/9/2010-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 94082) के अधिकारी श्री अजय कुमार को दिनांक 08.07.2010 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. 72 : (फा.सं. 50/150/2008-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त कांडर के नियमित सहायक श्री आदर्श कुमार को दिनांक 13.07.2010 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग में तथा अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री आदर्श कुमार की तदर्थ पदोन्नति प्रारंभ में 31.12.2010 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी। श्री आदर्श कुमार की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होंगी :--

(i) तदर्थ नियुक्ति, एक अंतःकालीन व्यवस्था होने के कारण उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का हक प्रदान नहीं करती।

(ii) तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि वरीयता कोटे/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या अगले आदेशों तक।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. 73 : (फा.सं. ए-19014/10/2007-प्रशा.1)--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तथा इस विभाग के दिनांक 20.07.2007 की अधिसूचना सं. 87/2007 के अनुक्रम में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री अर्णब आइच की राजस्व विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (तस्करी रोधी) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 20.07.2010 से 19.01.2010 तक छह माह या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ायी जाती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2010

सं. 5/2010 (फा. सं. ए-19013/04/2010-प्रशासन-1क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.09.2009 के का.ज्ञा. सं. 5/12/2008-सीएस-II और व्यय विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 2010 के सी ए एस

का.ज्ञा. सं. ए-12025/3/2006-सी. ए. एस. के अनुसरण में राष्ट्रपति, निगमित कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित आशुलिपिक ग्रेड-सी, श्री विपिन टंडन को जो तदर्थ आधार पर स्थानापन्न आशुलिपिक ग्रेड "ए एंड बी" (विलयीकृत) के रूप में कार्य कर रहे हैं, वर्ष 2006 की चयन सूची हेतु राजस्व विभाग में वरीयता कोटे में केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयीकृत) के रूप में दिनांक 25.6.2010 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

रेणुका नाग्यार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2010

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएं

सं. 27/2010 (फा. सं. ए-32012/14/2010-प्रशा.11)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत श्री बामिन तारी, आई आर एस (सी एंड सी ई) को दिनांक 30.07.2009 से आगामी आदेशों तक के लिए तथा तदर्थ आधार पर पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700/- रुपये के साथ [पूर्व संशोधित वेतनमान 14,300--18,300/- रुपये के समतुल्य] गैर प्रकायत्वक चयन ग्रेड (एन एफ एस जी) प्रदान करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2010

सं. ए-19011/7/2008-प्रशा.2--इस विभाग की 8.7.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक, श्री प्रबोध सक्सेना, भा.प्र.से. (हिमाचल प्रदेश : 90) को 6 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 22.01.2013 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इसी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. ए-15012/6/2008-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 11 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति शैलेन्द्र प्रसाद तालुकदार को दिनांक 12 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त

करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

वी. पी. भारद्वाज, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2010

सं. ए-19011/265/2007-स्था.--वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में उप सचिव श्री जे. एस. एस. शास्त्री अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री तपन कुमार दास, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को वरीयता कोटे से वर्ष 2003 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, 09 जुलाई, 2010 के पूर्वान्न से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री तपन कुमार दास केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमावली में यथानिर्धारित, उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षण पर रहेंगे।

3. श्री तपन कुमार दास, अनुभाग अधिकारी की नियमित आधार पर यह नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर न्यायालय मामला सं. 13245-60/2005 और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर मामला सं. ओए-1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के परिणामों के अध्वधीन होगी।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सी.एस.एस.एस. संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 + 4,800/5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि अथवा चयन सूची व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. नाम	पदोन्नति की अवधि
1 2	3
1. श्रीमती मधु गुप्ता	30.06.2010 से 31.12.2010
2. श्री आर. सी. मल्होत्रा	-तदैव-

1 2	3
3. श्री रवि शंकर	30.06.2010 से 31.12.2010
4. श्रीमती ज्योति नरूला	-तदैव-
5. श्री जी. वी. एस. एस. एल. नरसिंहम	-तदैव-
6. श्री लल्लन मांझी	-तदैव-
7. श्रीमती कुसुम शर्मा	-तदैव-
8. श्री विनोद चन्द्र ओबेराय	-तदैव-
9. श्रीमती एम. जयालक्ष्मी	-तदैव-

2. उपर्युक्त कार्मिकों की तदर्थ नियुक्ति उन्हें पद पर इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने का अधिकार अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के "ए एण्ड बी" (आमेलित) ग्रेड में वरीयता का दावा प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. पी.एफ.जी.(647)/02-प्रशासन-II--दिनांक 28.04.2010 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32011/1/2010-प्रशासन-II के अनुसरण में भारतीय कंपनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान अधिकारी के पद पर वेतनमान पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए के साथ 6,600/- रुपए ग्रेड पे पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री संजय यादव ने दिनांक 29.04.2010 (पूर्वान्न) से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उप-निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी. (469)/87-प्रशासन-II--दिनांक 08.04.2010 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22011/1/2009 प्रशासन-II के द्वारा स्थानांतरण के फलस्वरूप भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री जे. एन. टिक्कु ने दिनांक 27.04.2010 (पूर्वान्न) से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी. (474)/89-प्रशासन-II--दिनांक 28.04.2010 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22011/1/2009 प्रशासन-II के द्वारा स्थानांतरण के फलस्वरूप भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान अधिकारी श्री बी. के. एल. श्रीवास्तव ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 19.05.2010 (पूर्वान्न) से उप-निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी. (446)/84-प्रशासन-II--दिनांक 28.04.2010 के कार्यालय आदेश संख्या ए-22011/1/2009 प्रशासन-II के द्वारा स्थानांतरण के फलस्वरूप भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री नौबत सिंह ने दिनांक 11.05.2010 (पूर्वाह्न) से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी. (657)/02-प्रशासन-II--दिनांक 28.04.2010 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32011/1/2010 प्रशासन-II के द्वारा भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान अधिकारी के पद पर वेतनमान पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपए के साथ ग्रेड पे 6,600/- रुपए में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राजकुमार शाह ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 29.04.2010 (पूर्वाह्न) से उप-निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2010

सं. 27/2010(ए-32012/1/2009-स्था.-I)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोटे से अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2005 की चयन सूची में जोड़े जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 जून, 2010 के का.ज्ञा.सं. 6/2/2009-सीएस-I द्वारा नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थाई आशुलिपिकों, ग्रेड "सी" (वै. स.) को उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीखों से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम एवं जन्म की तारीख	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सुनील सिंह रावत (जन्म तिथि 29.09.1973)	सामान्य	15.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	श्री मनोज कुमार (जन्म तिथि 21.07.1969)	अ.जा.	11.06.2010 (पूर्वाह्न)
3.	श्री संजीव थपलियाल (जन्म तिथि 28.04.1973)	सामान्य	01.07.2010 (पूर्वाह्न)

2. ये नियुक्तियाँ श्री कैलाश चंदर द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर न्यायालयी मुकदमा डब्ल्यू.पी(सी) सं. 13245-60/2005 जो दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और श्री सौरांशु सिन्हा द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर किए गए मामला सं. ओए-1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 जो दिल्ली के माननीय कैंट में लंबित है, के परिणाम के अधधीन हैं।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

सं. 28/2010 (ए-32013/1/2009-स्था.-I)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोटे से अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2005 की चयन सूची में जोड़े जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 जून, 2010 के का.ज्ञा.सं. 6/2/2009-सीएस-I द्वारा नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा स्थायी आशुलिपिक ग्रेड "ए तथा बी" (समामेलित) श्री वी. सुरेन्द्र (जन्मतिथि 14.02.1966) को दिनांक 01.07.2010 (पूर्वाह्न) से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति श्री कैलाश चंदर द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर न्यायालयी मुकदमा डब्ल्यू.पी(सी) सं. 13245-60/2005 जो दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और श्री सौरांशु सिन्हा द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर किए गए मामला सं. ओए-1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 जो दिल्ली के माननीय कैंट में लंबित है, के परिणाम के अधधीन है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. 19/2010 (.) फा.सं. ए-46011/02/2010-स्था.(.)--विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री अशोक हजारा और श्री एस. आर. धनवाडकर, नियमित सहायक निदेशक ग्रेड-I (तकनीकी) को 04 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. (ग्रेड पे) के पे बैंड (पीबी-3) में पदोन्नति के आधार पर उप निदेशक (तकनीकी) (समूह क, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे 04.03.2010 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

सं. 20/2010 (.) फा.सं. ए-46011/18/2005-स्था.(.)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति, सर्वश्री बालुचामी मुनियांडी और सौरभ मुकुन्द कुलकर्णी को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए (ग्रेड पे) के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर क्रमशः 10 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) और 05 मार्च, 2009, 2010 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक ग्रेड-I (तकनीकी) (समूह 'क') राजपत्रित पद पर नियुक्त करते हैं। वे उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2010

सं. ए-19011/2/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार (आईएसएस:1999) को 02 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की

5-182 GL/2010

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. ए-12023/1/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 83) को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपए के पे बैंड-4 (पीबी-4) में 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित दिनांक 05 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एस. बसराँ, उप सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2010

सं. ए-22011/1/2010-स्था.--राष्ट्रपति, श्री रघुनाथ सिंह, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के एक नियमित सहायक हैं, को 30 जून, 2010 के पूर्वाह्न से 31.12.2010 तक, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हैं :-

- तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31.12.2010 तक अथवा जब तक नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।
- तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त अधिकारी ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्तियाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। उस स्थिति में जब तदर्थ नियुक्त अधिकारी उक्त दो श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है तो वह ऐसे नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर इस विभाग द्वारा उस अधिकारी के संबंधित संवर्ग इकाई में उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सहायक ग्रेड में वापस चले जाएंगे।

- संबंधित अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर उनकी तदर्थ पदोन्नति की प्रभावी तारीख वह होगी जब से वह अपने स्वयं की संवर्ग इकाई में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-12011/6/2010-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 28 जून, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 63/2010 के क्रम में श्री आर. माथुरबूथम, पूर्व निदेशक (विधिक माप विज्ञान) को 179 दिनों की अवधि अर्थात् 15.07.2010 से 09.01.2011 तक के लिए विभाग के उल्लिखित दिनांक 28 जून, 2010 के कार्यालय आदेश में निहित शर्तों एवं निबंधनों पर 32,334/- रुपए (बत्तीस हजार तीन सौ चौतीस रुपए मात्र) के मासिक समेकित शुल्क और 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए मात्र) के स्थानीय सवारी भत्ते पर पूर्णकालिक परामर्शदाता के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्टा, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. ए-38012/3/2009-स्था.-I--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री बाबू राम अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बी. बी. शर्मा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 28 जून 2010

सं. एस.एम./01/05/2009--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नान फंक्शनल सैकेण्ड ग्रेड ऑफ सुपरिन्टेन्डिंग सर्वेयर/उपनिदेशक एवं अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को उसी विभाग में निदेशक के उच्चतर वेतनमान 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु. में उनके नाम के सामने दी गई तिथि से अगले आदेशों तक सहर्ष स्थापित करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्थापना की तिथि
1.	श्री शैलेश कुमार सिन्हा	13.05.2010
2.	श्री उपेन्द्र नाथ मिश्रा	13.05.2010
3.	श्री मोहन कुमार स्टालिन (अनु. जा.)	13.05.2010

नीरज केला, निदेशक

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली-110016, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-12023/01/2008-स्थापना-I--राष्ट्रपति, हरिंगभाय फार्म, पशु संसाधन एवं पशु स्वास्थ्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहायक

अधीक्षक पशुधन डॉ. रामानुज बनर्जी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 19 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से 25.11.2011 तक व अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड (पीबी-3) तथा 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ, प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक 'डी' के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में डॉ. रामानुज बनर्जी की प्रतिनियुक्ति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन.II) दिनांक 17 जून, 2010 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2010

सं. 17013/22/2008 भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007, 2008 और 2009 में असम राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा पदोन्नति के लिए 08.12.2009 को आयोजित हुई बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए असम राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल है :--

वर्ष 2008 की चयन सूची

क्र. अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
1. श्री हेमकांता तालुकदार	31.12.1961
2. श्री चित्तरंजन भोबोरा	01.01.1956
3. श्री मधुसूदन सिन्हा	30.09.1956

*वर्ष 2007 और 2009 की चयन सूचियों में चयन के लिए कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जून 2010

सं. 23012/01/2001-आई.एफ.एस-II--उत्तराखंड संवर्ग की वर्ष 2005 च की भारतीय वन सेवा अधिकारी सुश्री नेहा गुप्ता को अपना नाम श्री नेहा गुप्ता से बदलकर श्रीमती नेहा वर्मा रखने की अनुमति दी जाती और आगे से सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए उन्हें श्रीमती नेहा वर्मा नाम से जाना जाएगा।

जोसेफ लुइखम, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2010

सं. ए-12025/05/2009-सी.एच.एस. VI--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. मीनाक्षी पण्डा को वेतन बैंड-3, रुपये 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में 21 जुलाई, 2008 पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक दंत सर्जन के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और सी.जी.एच.एस. (दिल्ली), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दंत सर्जन के रूप में तैनात करती हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. ए-32013/03/2010-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-सी. एस.-I (डी) के तहत वर्ष 2009 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की प्रवर सूची (भाग) में नाम शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री के. एस. नागी, ग्रेड-I (अवर सचिव) को एतद्वारा दिनांक 01.07.2010 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. एस. नागी की पदोन्नति माननीय सीएटी, कोलकाता के समक्ष वर्तमान में सुश्री गरिमा सिंह बनाम यूओआई एवं अन्य से संबंधित मामलों में लंबित ओ.ए. संख्या 1864/2009 में माननीय सीएटी के अंतिम आदेशों के अध्यधीन है।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/1/2010-आयुष (स्था.-II)--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश सं. 5/4/2010-रा.भा.(सेवा), दिनांक 15.03.2010 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31.03.2010 के अनुसरण में, श्री जे. एल. भल्ला को 01.04.2010 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग में उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. ए-22012/1/99-आयुष/स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या 5/2/2010-ईओ (एसएम-1) दिनांक 29.04.2010 के

अनुसरण में, श्री देव दत्त शर्मा, भारतीय वन सेवा (झारखण्ड : 84) को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पांच वर्षों की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को शेष अवधि हेतु अर्थात् 06.03.2012 तक 37,400--67,000/- रुपए के पे बैंड (पीबी-4) + 10,000/- रुपए के ग्रेड पे में आयुष विभाग में श्री बी. आनंद, भा.प्र.से. (टीएन : 87) के स्थान पर संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

दिनांक 23 जून 2010

सं. ए-19011/4/2010-आयुष(स्था.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/1/2010-ईओ (एमएम-1) दिनांक 04 जून, 2010 के अनुसरण में, श्री विक्रम सिंह गौड़, भारतीय वन सेवा (86) को 05.06.2012 तक अर्थात् केन्द्र में स्वीकार्य कुल सात वर्ष, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। श्री विक्रम सिंह गौड़, भारतीय वन सेवा (86) ने 07 जून, 2010 के पूर्वाह्न से निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

दिनांक 24 जून 2010

सं. ए-19011/2/2010-आयुष(स्था.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस-1 (यू) दिनांक 26 मई, 2010 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री चन्द्र शेखर	28.05.2010
2.	श्रीमती जेसमीन जेम्स	01.06.2010

2. सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में ये नियुक्तियाँ पूर्णतः तदर्थ आधार पर 31.05.2011 तक की अवधि हेतु या जब तक नियमित आधार पर पद भरे नहीं जाते, जो भी पहले हो, या अगले आदेशों तक की गई हैं। उपरोक्त नियुक्तियाँ पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इन अधिकारियों को अनिश्चित अवधि तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु ब्यन सूची में समावेश हेतु या सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। बिना कोई कारण बताए इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

3. अधिकारियों की उपर्युक्त नियुक्तियाँ माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ.ए. सं. 3294/2009 शीर्षक श्री एस. पी. शर्मा बनाम भारत संघ और ओ.ए. सं. 2674/2009 शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामलों में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होंगी।

टी. एस. भाटिया, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जुलाई 2010

सं. ए-19011/11/2010-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, गुरु अंगद देव विश्वविद्यालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब के अनुसंधान निदेशक, डॉ. अमरजीत सिंह नन्दा को 67,000--79,000/- रु. के वेतनमान में 14 जुलाई, 2010 पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता प्राप्त करने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में पशुपालन आयुक्त नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2010

सं. 4-8/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार सिन्हा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ग्रेड पे 6,600/- रुपए सहित पे बैंड-3 के अंतर्गत 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 31.05.2010 के अपराह्न से अवर सचिव (समूह 'क', के.स.से.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इसे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सी.एस.-1(यू) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

के. के. शर्मा, उप सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2010

सं. ए-19011/4/2010/स्था.--श्री सुरेंद्र पटेल की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर 31.05.2011 की अवधि तक के लिए या जब तक नियमित आधार पर पद को न भरा जाए, जो भी पहले हो, या अगले आदेशों तक के लिए तदर्थ आधार पर प्रोन्नति और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-1 (यू) के अनुसार संस्कृति मंत्रालय में तैनाती के फलस्वरूप, श्री सुरेंद्र पटेल ने दिनांक 07 जून, 2010 पूर्वाह्न से संस्कृति मंत्रालय में के.स.से. के अवर सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बी. एल. मीना, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जुलाई 2010

सं. ए-12022/06/2006-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 5/1/2008-सीएस-I (एस) दिनांक 13.02.2009 के माध्यम से वरिष्ठता कोट के विरुद्ध वर्ष 2005 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में श्री एल. आर. प्रधान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सीएसएस कैडर के मूल सहायक, को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा कैडर के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय) पे बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/- ग्रेड वेतन) में 20.06.2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियुक्ति, उच्च न्यायालय में लंबित कैलाश चन्दर बनाम भारत संघ द्वारा दायर मामला सं. 13245-60/2005 और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), दिल्ली में लम्बित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर एमए सं. 1171/2007 की निष्पत्तियों पर निर्भर होगी।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2010

सं. ए-12022/01/2010-स्था.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 5/7/2008-सीएस-II, दिनांक 17 मार्च, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री बलबीर सिंह का नाम वर्ष 2005 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उनको 17 मार्च, 2010 पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. ए-19011/03/2009-स्था.-II--राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) के निजी सचिव, श्री बी. वी. गोपाला रेड्डी, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 94) को 26 जून, 2010 के अपराह्न से महाराष्ट्र सरकार को प्रत्यावर्तित करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. ए-12012/04/2009-स्था.-II--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 25.06.2010 के आदेश संख्या 5/4/2010-रा.भा.(सेवा) के अनुसरण में श्री फकीर चंद, पूर्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग में उप निदेशक (रा.भा.) को केन्द्रीय सचिवालय

राजभाषा सेवा के संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद पर, तदर्थ आधार पर पदोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के रिक्त पद के प्रति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संख्या-बल में 07 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से शामिल किया जाता है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जुलाई 2010

सं. ए-22013/1/2006-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 2010 के आदेश संख्या 5/6/2010-सीएस-I(यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, ग्रेड-I श्री एस. के. गोयल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अवर सचिव पद पर (वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. एवं ग्रेड वेतन 6,600/- रु.) दिनांक 18 जून, 2010 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती हैं।

के. डी. सिंह, अवर सचिव

पोत-परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-32011/1/09-एमए--राष्ट्रपति, कैप्टन जे. एस. उप्पल, उप नॉटिकल सलाहकार को दिनांक 18.06.2010 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई के नियंत्रणाधीन समुद्री वाणिज्य विभाग, कांडला में 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 10,000/- रु. के वेतनमान में प्रधान अधिकारी (नॉटिकल) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. आर. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-12025/1/2010-ई-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस-I(यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में नीचे दिए गए नाम के सामने उल्लिखित तिथियों से 31.05.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, अथवा अगले आदेशों तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की तिथि
1. श्री सुशील कुमार झा (सीएसएल सं. 6347)	28.05.2010 (अपराह्न)
2. श्री रमेश प्रताप शुक्ला (सीएसएल सं. 6503)	04.06.2010 (पूर्वाह्न)
3. श्री हरी राम मीना (सीएसएल सं. 6755)	02.06.2010 (पूर्वाह्न)

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

- (i) यह तदर्थ पदोन्नति, इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी एस एस के ग्रेड-I में वरिष्ठता संबंधी दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ आधार पर यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- (iii) जिन अधिकारियों ने अनिवार्य स्तर 'घ' प्रशिक्षण जैसा कि सीएसएस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदेश किया गया है, नहीं लिया है, उन्हें 6 माह की अवधि के अंदर उक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- (iv) यह तदर्थ पदोन्नति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ नामक ओए सं. 3294/2009 में और श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक ओए सं. 2674/2009 में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2010

सं. 16/2010 (फा. सं. 12/1/2010-प्रशा.-II)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री वीरेन्द्र कुमार अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, 30 जून, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. 2/3/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री संजय प्रकाश को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान + 5,400/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 16 जुलाई, 2010 से और अगले आदेशों तक अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

सं. 2/3/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री कर्णधार संजय गोरेलाल को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान + 5,400/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 14 जुलाई, 2010 से और अगले आदेशों तक अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

सं. 2/3/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री शोभित श्रीवास्तव को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान +

रु. 5,400/- के ग्रेड पे में दिनांक 15 जुलाई, 2010 से और अगले आदेशों तक अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2010

सं. 10/2010 (फा. सं. 2/7/2004-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री सुधीर गर्ग, आईएस (यूपी : 90) को दिनांक 01.07.2010 के पूर्वाह्न से 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-4 में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि अर्थात् 06.05.2013 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. 11/2010 (फा. सं. 3/3/2009-स्थापना-एक)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ काल वेतनमान अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गयी तारीख से नियमित रूप से पदोन्नति पर उसी सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान में रु. 10,000--15,200/- (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
सं.	
1. श्री अमित रंजन	08.01.2010 (पूर्वाह्न)
2. श्री अमरीश पाल सिंह	07.01.2010 (अपराह्न)
3. श्री राकेश वर्मा	29.04.2010 (पूर्वाह्न)
	के. राजप्पा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. 234/2010 (फा. सं. 5/1/2010-प्रशा.-II)--फाईल सं. 13016/3/2010-आई.ई.एस. से जारी किए गए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2010 के आदेश सं. पी-3/2010 के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप आर्थिक सलाहकार के रूप में तैनात, सुश्री प्रोमोदिता को एतद्वारा दिनांक 01.07.2010 के प्रभाव से पे बैंड-4, 37,000--67,000/- रु. और ग्रेड पे 8,700/- रु. में गैर-कार्यात्मक (नॉन-फंक्शनल) चयन ग्रेड प्रदान किया जाता है।

2. सुश्री प्रोमोदिता को गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित पड़ी सिविल रिट याचिका सं. 5953/2002 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगा।

3. गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, सुश्री प्रोमोदिता को इस मंत्रालय में अब अपर आर्थिक सलाहकार के रूप में पदनामित किया जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 19th July 2010

No. A-22012/1/2010-PME—consequent upon her appointment as Officer on Special Duty in the Office of the Adviser to Prime Minister, Public Information Infrastructure and Innovations, Smt. kalpana Awasthi, IAS (UP:90) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 19th July, 2010.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th July 2010

No. RS/3/4/1/2010/60-Parl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Sangita, Deputy Director (PSS) in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Joint Director (PSS) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/4/1/2010/61-Parl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Senior Private Secretary on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders :—

1. Smt. Ravinder Chopra
2. Smt. Urmila Devi Guleria
3. Smt. Pushpa Sabharwal
4. Shri Rajiv Kathpal
5. Shri Upender Singh Bhandari
6. Shri Sanjay Kumar
7. Smt. Alka Saini

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/5/1/2010/62-Parl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Suman Mala Thakur, Joint Director (Interpretation) in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Director (Interpretation) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- plus usual allowances

admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/7/1/2010/63-Parl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Editor in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Assistant Director (E&T) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders:—

1. Shri Manoj Kumar
2. Shri Sanjay Dev
3. Shri Jay Shanker Pandey
4. Shri Rajesh Kumar Bhardwaj
5. Shri Rajeev Kumar Bangia
6. Shri Kuldeep Singh Ahlawat
7. Smt. Nirupa Belwal
8. Shri Shailender Kumar
9. Shri Raghavendra Rao
10. Shri Devender Singh Pal
11. Shri Rakesh Kumar Dixit
12. Shri Sarvesh Narain

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/2/1/2010/64-Parl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Meena Kandwal, Assistant Director (LARRDIS) in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Deputy Director (LARRDIS) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 20th July 2010

No. RS/3/8/1/2010/65-Parl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Maneesh Kumar, Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Assistant Director (Security) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 20th July, 2010 until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi 110001, the 3rd January 2010

No F.15/10/2009/GN-6361/AN-I—Consequent upon Shri L.K. Advani ceasing to be the Leader of the Opposition in Lok Sabha, the following persons, who were appointed on his personal staff on co-terminus basis against the posts mentioned below, are granted winding up period of 15 days w.e.f. 21st December, 2009 upto 4th January, 2010 and thereafter their services stand terminated:—

1. Shri Deepak Chopra, Secretary to Leader of the Opposition, Lok Sabha
2. Shri J.C. Joshi, Assistant Private Secretary
3. Shri Siddharth Naithani, Assistant Private Secretary

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No F.15/10/2009/GN-6362/AN-I—Consequent upon Shri L.K. Advani ceasing to be the Leader of the Opposition in Lok Sabha, Shri Parkash Chander, who was appointed as Additional Private Secretary to the Leader of the Opposition, Lok Sabha on co-terminus basis is granted winding up period of 30 days w.e.f. 21st December, 2009 upto 19th January, 2010 and thereafter his services stand terminated.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No F.15/10/2009/GN-6363/AN-I—Consequent upon Shri L.K. Advani ceasing to be the Leader of the Opposition in Lok Sabha, Shri KSCSVP Gandhi, Deputy Manager of BSNL, Corporate Office, New Delhi who was appointed as Officer on Special Duty to the Leader of the Opposition, Lok Sabha on deputation/co-terminus basis, is granted winding up period for 15 days w.e.f. 21st December, 2009 upto 4th January, 2010.

2. Further, in terms of provisions of Department of Personnel & Training OM No. 2/29/91-Estt. (Pay.II) dated 05.01.1994 as adopted vide R&CS Order No. Misc. 54/95 dated 10.10.1995, Shri KSCSVP Gandhi is granted Earned Leave for 60 days with effect from 5th January, 2010 upto 5th March, 2010 with permission to suffix 6th and 7th March, 2010 being holidays on account of Saturday and Sunday and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. BSNL Corporate Office, New Delhi.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 11th January 2010

No. F.15/13/2009/GN-6364/AN-I—The following persons are appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay

of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade pay Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman of the respective Parliamentary Committee with effect from the date (s) as shown against each, until further orders:—

Sl. No.	Name	Name of the Committee and the Chairman	Date of Appointment
1.	Shri Rama Shankar Pandey	Committee on Energy (Shri Mulayam Singh Yadav)	01.09.2009
2.	Shri Ravindra Kumar	Committee on Information Technology (Shri Rao Inderjit Singh)	10.09.2009

2. The appointment of above mentioned persons to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman of the respective Committee.

3. They will be designated as Private Secretary to the Chairman of the respective Committee.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 12th January 2010

No. F.22/1/GN-6365/2010/AN-I—The probation period of Shri Pawan Kumar Jha in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II has been extended for a period of one year with effect from 28.04.2009 upto 27.04.2010.

2. This is in continuation of Notification No. F. 15/7/GN-5889/AN-I/2007 dated 10th May, 2007.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 15th January, 2010

No. F.15/08/2009/GN-6366/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Dinesh Chandra Pandey, ASI/RM of BSF as Assistant Private Secretary to Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Karia Munda) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 5,400/- on deputation and co-terminus basis with effect from the forenoon of 4th January, 2010 until further orders.

2. The appointment of Shri Dinesh Chandra Pandey on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Karia Munda) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F.15/13/2009/GN-6367/AN-I—Consequent upon the resignation of Shri Jaswant Singh from the Chairmanship of Committee on Public Accounts, Shri Brij Bhan Singh, Senior

Executive Assistant of Rajya Sabha Secretariat who was appointed as Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Public Accounts on deputation/co-terminus basis is granted winding up period of 15 days w.e.f. 1st January, 2010 upto 15th January, 2010.

2. Further, in terms of provisions of Department of Personnel & Training OM. No 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 05.01.1994 as adopted vide R&CS Order No. Misc. 54/95 dated 10.10.1995, Shri Brij Bhan Singh is granted Earned leave for 14 days with effect from 16th January, 2010 upto 29th January, 2010 with permission to suffix 30th January and 31st January, 2010 being holidays on account of Saturday and Sunday and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 19th January 2010

No. F.15/01/2010/GN-6368/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following persons on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) on co-terminus basis against the post(s) and scale(s) of pay indicated against each with effect from 1st January, 2010 until further orders :—

Sl. No.	Name	Designation	Scale of pay
1.	Shri Satish C. Gupta	Private Secretary to the Leader of the Opposition, Lok Sabha	Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + GP Rs. 8,700/-
2.	Shri Kul Bhushan Nagar	Additional Private Secretary to the Leader of the Opposition Lok Sabha	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 6,600/-

2. The appointment of above-mentioned persons on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F. 15/01/2010/GN-6369/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Vijay Prakash Dwivedi, Officiating Assistant Administrative Officer in UPSC, Dholpur House, New Delhi as Assistant Private Secretary on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 5,400/- on deputation and co-terminus basis with effect from the forenoon of 8th January, 2010.

2. The appointment of Shri Vijay Prakash Dwivedi, on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on tenure basis and during the

pleasure of or terminus with the term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F. 15/13/2009/GN-6370/AN-I—Consequent upon the resignation of Smt. Sushma Swaraj from the Chairmanship of Committee on External Affairs, the services of Shri Kul Bhushan Nagar, who was appointed as Senior Private Secretary on her personal staff on tenure and co-terminus basis, stood terminated with effect from the afternoon of 31st December, 2009.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 27th January 2010

No. F. 15/01/2010/GN-6371/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Anil Kumar Dubey, Additional Assistant Director in the Directorate of Income Tax, Ministry of Finance, Govt. of India as Assistant Private Secretary on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 5,400/- on deputation and co-terminus basis with effect from the afternoon of 8th January, 2010.

2. The appointment of Shri Anil Kumar Dubey, on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 1st February 2010

No. PF. 766-R(3)/GN-6372/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri J.C. Sharma, Additional Director (LARRDIS) has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 34-R(3)/GN-6373/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Gopal Singh, Director has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 45-R(3)/GN-6374/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri B.D. Swan, Director has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 47-R(3)/GN-6375/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri S.B. Arora, Director has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 134-R(3)/GN-6376/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri R.K. Bhatnagar, Deputy Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 263-R(3)/GN-6377/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Swarup, EO/LO/CO/PO has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 2nd February, 2010

No. PF. 13-R(3)/GN-6378/AN-I/2010—In continuation of this Secretariat Notification No. GN-5575 dated 23rd December, 2008, the services of Shri A. Mukhopadhyay, (IA&AS: 1980) who is presently working as Joint Secretary in Lok Sabha Secretariat on deputation basis are extended for a further period of one year with effect from 29th November, 2009 upto 28th November, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 3rd February 2010

No. F. 15/13/2009/GN-6379/AN-I—The following persons are appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman of the respective Parliamentary Committee with effect from the date(s) as shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Name of the Committee and the Chairman	Date of Appointment
1.	Shri Ravi M.	Committee on MPLADS (Lok Sabha) (Shri A.K.S. Vijayan)	07.10.2009
2.	Shri Gajender Sharma	Committee on External Affairs (Shri Yashwant Sinha)	06.01.2010

2. The appointment of above-mentioned persons to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and

during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman of the respective Committee.

3. They will be designated as Private Secretary to the Chairman of the respective Committee.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 8th February 2010

No. PF. 156-R(3)/GN-6380/AN-I/2009—In continuation of this Secretariat Notification No. PF. 1359(3)/GN-4818/AN-I/2002 dated 18th September, 2002, the period of probation of Shri Khakhai Zou, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer is deemed to have been extended with effect from 17.09.2004 upto 28.01.2009.

2. He has now satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 15th February 2010

No. PF. 1759-R(3)/GN-6381/AN-I/2009—Shri Pallab Basak, SRA (Tech.) of Cabinet Secretariat, who is presently working as Security Officer (Technical) on deputation basis is relieved of his duties with effect from 15th February, 2010 (FN) and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department i.e. Cabinet Secretariat.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 16th February 2010

No. F. 15/15/GN-6382/AN-I/2009—Consequent upon his selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in Lok Sabha Secretariat on the basis of Preliminary Examination held on 26th April, 2009, Main Examination held from 2nd June, 2009 to 7th June, 2009 and Personal Interview held on 18th July, 2009, the Speaker is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Sahu to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5,400/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 14th January, 2010 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 14th January, 2010 upto 13th January, 2012.

3. His inter-se-seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 22nd February 2010

No. PF. 1759-R(3)/GN-6383/AN-I/2009—In partial modification of earlier notification No. PF. 1759-R(3)/GN-6381/AN-I/2009 dated 15th February, 2010, Shri Pallab Basak, SRA (Tech.) of Cabinet Secretariat, who is presently working as Security Officer (Technical) on deputation basis is relieved of his duties with effect from 22nd February, 2010 (FN) instead of 15th February, 2010 and thereafter, his services are placed back at the disposal of his parent department i.e. Cabinet Secretariat.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F. 15/13/2009/GN-6384/AN-I—The following persons are appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman of the respective Parliamentary Committee with effect from the date(s) as shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Name of the Committee and the Chairman	Date of Appointment
1.	Shri R. Surendran Nair	Committee on Public Accounts (Shri Gopinath Munde)	06.01.2010
2.	Ms. Bina Singh	Joint Committee on Offices of Profit (Shri Rewati Raman Singh)	01.12.2010

2. The appointment of above-mentioned persons to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman of the respective Committee.

3. They will be designated as Private Secretary to the Chairman of the respective Committee.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F. 15/13/2009/GN-6385/AN-I—Shri K. P. Muralidharan, Private Secretary in the Directorate General of Supplies and Disposals, Ministry of Commerce (Supply Division), Govt. of India is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + G.P. Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman, Committee of Privileges (Shri P. C. Chacko) on deputation and co-terminus basis with effect from the forenoon of 30th December, 2009 until further orders.

2. The appointment of Shri K. P. Muralidharan to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of present Chairman Committee of Privileges.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee of Privileges.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F. 15/01/2010/GN-6386/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajinder Sikka as Additional Private Secretary to the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 6,600/- on co-terminus basis with effect from 1st February, 2010 until further orders.

2. The appointment of Shri Rajinder Sikka on the personal staff of the Leader of the Opposition, Lok Sabha (Smt. Sushma Swaraj) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Leader of the Opposition, Lok Sabha.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 24th February 2010

No. F. 15/10/2009/GN-6387/AN-I—In partial modification of the Notification No. F. 15/10/2009/GN-6363/AN-I dated 3rd January, 2010, the Earned Leave of 60 days from 5th January, 2010 to 5th March, 2010 earlier granted to Shri KSCSVP Gandhi, Deputy Manager of BSNL Corporate Office, New Delhi who worked as OSD to former Leader of the Opposition, Lok Sabha (Shri L. K. Advani) on deputation/co-terminus basis is curtailed to 53 days i.e. upto 26th February, 2010 with permission to suffix 27th & 28th February, 2010 and 1st March, 2010 being holidays on account of Milad-un-Nabi, Sunday and Holi respectively and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. BSNL Corporate Office, New Delhi.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 2nd March 2010

No. F. 15/13/2009/GN-6388/AN-I—The services of Shri Raj Kumar, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Urban Development (Shri Sharad Yadav) stood terminated with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 06-R(3)/GN-6389/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri R. C. Ahuja, Additional Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. F. 15/13/2009/GN-6390/AN-I—Ms. Vimmi Kumari is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman, Committee on Coal and Steel (Shri Kalyan Banerjee) with effect from 3rd December, 2009.

2. The appointment of Ms. Vimmi Kumari to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Coal and Steel (Shri Kalyan Banerjee).

3. She will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Coal and Steel.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 11th March 2010

No. F. 15/13/2009/GN-6391/AN-I—Shri K. P. Muralidharan, Private Secretary in the Directorate General of Supplies and Disposals, Ministry of Commerce (Supply Division), New Delhi who is presently working as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee of Privileges (Shri P. C. Chacko) on deputation and co-terminus basis is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 11th March, 2010 and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. Directorate General of Supplies and Disposals, Ministry of Commerce (Supply Division), New Delhi.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 23rd March 2010

No. PF. 1029-R(2)/GN-6392/AN-I/2010—The following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Private Secretary :—

1. Shri Satya Veer Singh
2. Smt. Savita Sikri
3. Shri G. Vasudevan

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-5925 dated 9th July, 2007 and GN-5903 dated 13th June, 2007.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 26th March 2010

No. F. 15/13/2009/GN-6393/AN-I—Shri Rajendra Nath A. S. is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman, Committee of Privileges (Shri P. C. Chacko) with effect from 12th March, 2010.

2. The appointment of Shri Rajendra Nath A. S. to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee of Privileges (Shri P. C. Chacko).

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee of Privileges.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 31st March 2010

No. PF. 1328-R(3)/GN-6394/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Ved Prakash Sharma-II, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31.03.2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 132-R(3)/GN-6395/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Smt. Kamlesh Pahwa, Deputy Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 228-R(3)/GN-6396/AN-I/2010—The following persons have successfully completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer :—

1. Shri Shiva Nand
2. Shri Ramesh Chand Wadhwa
3. Shri Tika Ram Nauriyal
4. Smt. Madhu Bhutani
5. Shri Krishna C. Pandey
6. Shri Bina Dhar Dhyani
7. Shri V. Ganapathy
8. Shri Arun Kumar
9. Smt. Anju Kukreja
10. Smt. L. Nemjalhing Haokip
11. Shri Sri Pal
12. Shri Ramesh Chand Aheria

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-5874, GN-5875, GN-5876 dated 03.04.2007 and GN-6118 dated 18.11.2008 respectively.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 12th April 2010

No. PF. 774-R(3)/GN-6397/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Sunil Kesari, Joint Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 7,600/- who was appointed as Additional Director (LARRDIS) on ad hoc basis vide Notification No. F. 23/11/2009/GN-6271/AN-I dated 20th July, 2009 to the grade of Additional Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 8,000/- on regular basis with effect from 11th April, 2010 until further orders.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 775-R(3)/GN-6398/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Alpana Tripath, Joint Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 7,600/- to the grade of Additional Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 8,000/- with effect from 11th April, 2010 until further orders.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 779-R(3)/GN-6399/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 6,600/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 7,600/- in the order shown below, with effect from 11th April, 2010 until further orders :—

1. Shri Sanjay Kumar

2. Dr. Ranbir Kumar

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 818-R(3)/GN-6400/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officer in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 5,400/- to the grade of Deputy Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 6,600/- in the order shown below, with effect from 11th April, 2010 until further orders :—

1. Shri Rajesh Khurana

2. Shri V. K. Bhargava

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 844-R(3)/GN-6401/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Assistants in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + GP Rs. 4,800/- to the grade of Research/Reference Officer in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 5,400/- in the order shown below, with effect from 11th April, 2010 until further orders :—

1. Smt. Neelam Balhara

2. Smt. Lakshmi Sreedhar

3. They will be on probation in the grade of Research/Reference Officer for a period of 2 years with effect from 11th April, 2010 upto 10th April, 2012.

4. Their inter-se seniority in the grade of Research/Reference Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 755-R(3)/GN-6402/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Kalpana Sharma, Additional Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + GP Rs. 8,000/- to the grade of Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + GP Rs. 8,700/- with effect from 11th April, 2010 until further orders.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF. 952-R(3)/GN-6403/AN-I/2010—Dr. S. Prabhakar, Parliamentary Reporter Grade-I, who was appointed as Joint Director (Reporting) on ad-hoc basis vide Notification No. GN-5846 dated 3rd March, 2007 is reverted to the grade of Parliamentary Reporter Grade-I with effect from 22.06.2009.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 20th April 2010

No. F. 15/13/2009/GN-6412/AN-I—Shri D. K. Sharma is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman, Committee on Urban Development (Shri Sharad Yadav) with effect from 6th April, 2010.

2. The appointment of Shri D. K. Sharma to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Urban Development (Shri Sharad Yadav).

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Urban Development.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 28th April 2010

No. PF. 1489-R(3)/GN-6415/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Panna Lal, Joint Director (Security) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7,600/- to the grade of Additional Director (Security) in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 8,000/- with effect from 27th April, 2010 until further orders.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 30th April 2010

No. PF. 249-R(3)/GN-6416/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Jai Prakash, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer has retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

New Delhi-110001, the 16th April 2010

No. PF. 90-R(3)/GN-6406/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Secretaries in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- to the grade of Additional Director in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/- in the order as shown below, with effect from 15th April, 2010 until further orders :—

1. Smt. Rita Jailkhani
2. Shri Jagdish Prasad
3. Shri Hoti Lal
4. Shri A. K. Kaushik
5. Shri Ajay Kumar Munshi

N. C. GUPTA, Addl. Director

No. PF. 61-R(3)/GN-6405/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Additional Directors in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/- to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay Rs. 8,700/- in the order as shown below, with effect from 15th April, 2010 until further orders :—

1. Smt. Neera Singh*
2. Shri N. S. Hooda
3. Smt. Abha Singh Yaduvanshi

N. C. GUPTA, Addl. Director

No. PF. 150-R(3)/GN-6407/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Under Secretaries in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- in the order as shown below, with effect from 15th April, 2010 until further orders :—

1. Shri Bishamber Dayal
2. Shri M. L. K. Raja
3. Shri Ram Kishan
4. Ms. Amita Walia
5. Smt. Jyochanamayi Sinha
6. Shri Lalkithang
7. Shri Sunder Prasad Das
8. Smt. Meenakshi Sharma

N. C. GUPTA, Addl. Director

No. PF. 154-R(3)/GN-6408/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Dr. Satya Prakash, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- presently on deputation to Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- with effect from 15th April, 2010, until further orders. He will rank junior to Shri Ram Kishan but senior to Ms. Amita Walia in the grade of Deputy Secretary.

N. C. GUPTA, Addl. Director

No. PF. 195-R(3)/GN-6409/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Geeta Parmar, who was appointed as Under Secretary on ad hoc basis vide Notification No. GN-6310 dated 25th September, 2009, to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- on regular basis with effect from 15th April, 2010 until further orders.

N. C. GUPTA, Addl. Director

No. PF. 196-R(3)/GN-6410/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the order as shown below, with effect from 15th April, 2010 until further orders :—

1. Shri Munish Kumar Rewari
2. Shri G. C. Dobhal
3. Shri Ram Saroop Banga
4. Shri Rakesh Bhardwaj
5. Smt. Emma C. Barwa

N. C. GUPTA, Addl. Director

No. PF. 281-R(3)/GN-6410/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + Grade Pay Rs. 4,800/- to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in an officiating capacity with effect from 15th April, 2010 until further orders :—

1. Shri Ginsuanlian Guite
2. Smt. Savita Bhatia
3. Shri Tapan Kumar Kor
4. Shri Suresh Chander

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of 2 years with effect from 15th April, 2010 upto 14th April, 2012.

3. Their inter-se seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

N. C. GUPTA, Addl. Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 15th July 2010

No. 2/1(1)/2010-I—The President is pleased to appoint Shri Ashish Joshi as Scientist/Engineer-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 12.04.2010 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2010-I—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar as Purchase & Stores Officer in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 01.04.2010 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 5th July 2010

No. F. 6(1623)/94-Adm. I—On completion of his tenure as Chief Statistician of India, National Statistical Commission, with concurrent charge as Secretary, Ministry of Statistics & Programme Implementation, Dr. Pronab Sen has assumed charge as Principal Adviser, Planning Commission w.e.f. 30.06.2010 (AN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 6th July 2010

No. F. 6(2134)/2010-Adm. I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Communication No. 7/9/2010-EO (SM. I) dated 31st May, 2010, Smt. Vandana Kumari Jena, IAS (OR : 79) has assumed charge as Adviser in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 5th July, 2010.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 20th July 2010

No. A-32014/1/2007-Admn. V/IV—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers

(CSS) for the year 2007 against Seniority Quota, Shri V. K. Wali, a regular Assistant (CSS), Planning Commission who is presently officiating as Section Officer on ad hoc basis, is appointed as Section Officers (CSS) on regular basis in Planning Commission in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 20.07.2010 (FN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

New Delhi, the 20th July 2010

No. Adv. to PM-KA/07/2010-PIII—In pursuance of ACC's approval as communicated vide Department of Personnel and Training's Order No. 21/4/2010-EO (SM.I) dated 16th July, 2010, Ms. Kalpana Awasthi, IAS (UP : 90) has assumed charge as Officer on Special Duty in the Office of the Adviser to Prime Minister, Public Information Infrastructure and Innovations, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the afternoon of 19th July, 2010 and till 28.02.2012 or until further orders, whichever is earlier.

S. BOSE, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 14th July 2010

No. A-32013/2/2005-Admn. I(L.D.)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Misbah Uddin Siddiqui, Assistant Legislative Counsel (Urdu) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Wing of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 13th July 2010 and until further orders.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

New Delhi, the 16th July 2010

No. A-37012/3/2008-VSP(A)—The President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore, Assistant Editor, in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 05th July, 2010 to 04th October, 2010 or until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri Jugal Kishore any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Editor nor the ad-hoc service rendered by him

will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th July 2010

No. 14016/1/2010-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Additional Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs hereby appoints Shri Mohinder Singh, Inspector (D-I/740), Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years.

2. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that Shri Mohinder Singh continues to remain free from vigilance angle.

3. The appointment of Shri Mohinder Singh, Inspector of Delhi Police into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007—Jagdish Chand Versus Union of India and Another. Also the appointment of Shri Harbans Lal Arora (D-I/161) into Entry Grade of DANIPS is subject to the outcome of CWP No. 11356-62/2006 in the Hon'ble High Court of Delhi.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 20th July 2010

No. A-32014/6/2010-Ad.I (A)—The President is pleased to appoint the following Senior Principal Private Secretaries in the sub cadres of this Ministry as Principal Staff Officers (PSO) with effect from the forenoon of 01st July, 2010 in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000 + G.P. Rs. 8,700/-), consequent upon inclusion of their names in the upgraded of Principal Staff Officer for the Select List Year, vide DoPT's O.M. No. 5/7/2010-CS. II(A) dated 23.06.2010.

Sl. No.	Name	Sl. No. as per DoPT's above referred OM	Sub cadre of MHA where the officer is working as Sr. PPS on regular basis
---------	------	---	---

S/Shri			
1.	Sunil Kumar Madan	3	CS (RB)
2.	D. Balanujan	4	PMO
3.	Sunil Kumar	8	MHA (P)

2. Consequent upon promotion as PSO, the above-said officers are posted in the respective sub cadres of this Ministry where they have been working as Sr. PPS.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 22nd July 2010

No.-14031/01/2007-UTS-I—On attaining the age of superannuation, Shri Purushotam Das, Indian Police Service Officer of 1996 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union territories, retired from service in the afternoon of 30 June, 2010

BALDEV RAJ, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110001, the 14th July 2010

No. A-32014/01/2010-cadre (Ad. IV)—Consequent upon their inclusion in the Select List (SL) for the year 2006 of Central Secretariat Service (CSS) as per this Department's Office Order no. 32014/01/2010-Cadre dated 07 July, 2010, the president is pleased to appoint the following officials as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Pay Band-2 with a Grade pay of Rs 4,800/- in the Ministry of Personnel Public grievances & Pensions:—

HARISH CHANDER, Under Secy.

Sl. No.	Name of the Officer	Mode of appointment	Date of appointment
1.	Shri Desh Raj Singh	SQ/2006	01.07.2006
2.	Shri Sukhbir Singh	SQ/2006	01.07.2006

HARISH CHANDER, Under Secy.

The 23th July 2010

No. A-32013/05/2010-Ad. I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service for the year 2005 and in pursuance to DP&T's OM No. 5/7/2008-CS.II dated the 17 March, 2010, the President is pleased to appoint S/Shri Raj Kumar Arora and Ratan Lal, PPS (ad hoc) in the Cadre of Ministry of Personnel P. G. & Pensions as regular Principal Private Secretary presently posted in CIC in the pay structure of PB-3 Rs. 15,600—39,100 plus Rs. 6,600 (GP) w.e.f. the forenoon of 18.03.2010.

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 19th July 2010

No. -14015/15/2009-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the

Select List of Non-State Civil Service officers of Rajasthan containing the following names prepared on 16.06.2010 under Regulation 5 and approved on 14 July, 2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Rajasthan under Non State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009:—

SELECT LIST 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Suresh Chandra Dinkar	16.06.1958
2.	R. S. Jakhar	04.05.1955
3.	Giriraj Singh Kushwaha	31.07.1958

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. -14015/19/2009-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Rajasthan to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009, on probation until further orders and to allocate them to the Rajasthan Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	Suresh Chandra Dinkar
2.	R. S. Jakhar
3.	Giriraj Singh Kushwaha

2. As per the interim order dated 05.07.2010 of Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench the appointment of the above officers to IAS is subject to the decision in SBCWP No. 8286/2010 filed by Sh. Ram Karan Aameria Vs. State of Rajasthan & Ors.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 20th July 2010

No. -14015/14/2009-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Maharashtra containing the following names prepared on 03 April, 2010

under Regulation 5(5) and approved on 14 June, 2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Maharashtra under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009:—

SELECT LIST 2009

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.*	Y. W. Gedam (ST)	18.01.1956
2.	P. M. Mahajan	20.12.1955

*The name of the officer at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings/grant of Integrity Certificate by the State Government.

2. The inclusion of the above officers in the said Select List shall be subject to the result of W.P. No. 1803-1806/2010 (S-CAT) & Batch before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. -14015/14/2009-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri P. M. Mahajan, a member of the State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 on probation until further orders and to allocate them to IAS Cadre of Maharashtra, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of the above officers shall be subject to the result of WP No. 1803-1806/2010 (S-CAT) and batch before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 26th July 2010

No. -23012/04/2010-AIS-III—Smt. Ashima Garg, IAS (HY: 2004) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2003 and borne on the cadre of Haryana, has been permitted to change her name from "Ashima Garg." to "Ashima Brar". She will accordingly be recognised as Smt. Ashima Brar for all official purposes.

SHAUKAT ALI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th July 2010

No. -19/PB-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Domnick Tirkey (DOB: 16.06.1950), an

officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government service in the afternoon of 30th June, 2010.

M. B. VERMA, Administrative Officer (PB-I&III)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 15th July 2010

No. -D-III/460/CF-51(A)/2009—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. S. Vasudevan as Honorary Consul of Mongolia in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. S. Vasudevan comprises the State of Karnataka.

DINESH BHATIA, Dir. & Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 9th July 2010

No. 70 (F. No. 50/150/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of the Finance Cadre of the Central Secretariat Services (CSS) as Section Officer of the CSS on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. the date shown against the name of each officer and until further orders :—

S. No.	Name	Date of joining as Section Officer (Ad-hoc)
	S/Shri	
1.	Sanjay Rawat	09.07.2010 (FN)
2.	Ram Prasad Maurya	08.07.2010 (AN)
3.	B. D. Chawla	08.07.2010 (AN)
4.	Shah Faiz Ahmed	09.07.2010 (FN)
5.	Sarita Sharma (Ms.)	08.07.2010 (AN)

2. The ad-hoc promotion of these officers would initially be upto 31.12.2010 or until further orders. The ad-hoc appointments of above Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade.
- Ad-hoc arrangement will continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further order.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 12th July 2010

No. 71 (F. No. A-19012/9/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, IRS (IT : 94082) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 08.07.2010 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 15th July 2010

No. 72 (F. No. 50/150/2008-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Adarsh Kumar, regular Assistant of the Finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of the CSS on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. 13.07.2010 (FN) and until further orders.

2. The ad-hoc promotion of Shri Adarsh Kumar would initially be upto 31.12.2010 or until further orders. The ad-hoc appointment of Shri Adarsh Kumar will be subject to the following terms and conditions :—

- Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade.
- Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further order.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 19th July 2010

No. 73 (F. No. A-19014/10/2007-Ad.-I)—With the approval of the competent authority and in continuation of this Department's Notification No. 87/2007 dated 20.07.2007, the deputation tenure of Shri Arnab Aich, a Section Officer of Department of Industrial Policy & Promotion cadre of CSS, as Junior Analyst (Anti-Smuggling) in the Department of Revenue is extended for a period of six months w.e.f. 20.07.2010 to 19.01.2011 or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 12th July 2010

No. 5/2010 (F. No. A-19013/4/2010-Ad.-IA)—In pursuance to Department of Expenditure, CAS's O.M.No. A-12025/3/2006-CAS dated 7th July, 2010 and DOP&T's O.M.No. 5/12/2008-CS-II dated 03.09.2009 the President is pleased to appoint Shri Vipin Tandon, a regular Steno Grade 'C' of CSSS [officiating as Steno Grade 'A&B' (Merged) on ad-hoc basis]

of Ministry of Corporate Affairs as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the SL Year 2006, against Seniority Quota in the Department of Revenue with effect from 25.06.2010 (F.N.).

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

Ministry of Finance, Department of Financial Services will retire from the Government Service with effect from, the afternoon of 31st July, 2010.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 19th July 2010

No. 27/2010 (F.No. A-32012/14/2010-Ad.-II)—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade (NFSG) in the Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8,700/- (corresponding to pre-revised pay scale of Rs. 14,300—18,300/-) to Shri Bamin Tari, IRS (C&CE) in Junior Administrative Grade in the Central Board of Excise & Customs, on ad-hoc basis with effect from 30.07.2009, until further orders.

S. K. DEB, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 13th July 2010

No. A-19011/7/2008-Admn.-II—In supersession of this Department's Notification of even number dated 08.07.2010, the President is pleased to appoint Shri Prabodh Saxena, IAS (HP: 90), Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Joint Secretary in the same Department with effect from the forenoon of 6th July 2010 for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. up to 22.01.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi-110001, the 15th July 2010

No. A-15012/6/2008-DRT—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Section 11 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby appoints Justice Sailendra Prasad Talukdar, Judge (Retired), Calcutta High Court, as Chairperson of Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, for a period of five years, with effect from 12th July, 2010 (F.N.) or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

V. P. BHARDWAJ, Director

New Delhi, the 17th June 2010

No. A-19011/265/2007-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri J.S.S. Sastry, Deputy Secretary in the

The 14th July 2010

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Tapan Kumar Das, Section Officer (ad-hoc) to the Section Officer Grade of CSS on regular basis with effect from the forenoon of 9th July, 2010, consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2003 against the Seniority Quota.

2. Shri Tapan Kumar Das, Section Officer will be on 'trial' for a period of two years from the date of his appointment, as laid down in the CSS Rules.

3. The appointment of Shri Tapan Kumar Das, Section Officer on regular basis shall be subject to the outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 file by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 26th July 2010

No. A-32014/1/2006-Ad.-I—The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of CSSS cadre of the Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/-, 5,400/- Grade Pay, purely on ad-hoc basis for the period mentioned against their names or till the select list persons become available, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Period of Promotion
1.	Smt. Madhu Gupta	30.06.2010 to 31.12.2010
2.	Shri R. C. Malhotra	- do -
3.	Shri Ravi Shankar	- do -
4.	Smt. Jyoti Narula	- do -
5.	Shri G.V.S.S.L. Narasimham	- do -
6.	Shri Lallan Manjhi	- do -
7.	Smt. Kusum Sharma	- do -
8.	Shri Vinod Chander Oberoi	- do -
9.	Smt. M. Jayalakshmi	- do -

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular

appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (merged) of CSSS. The ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 14th July 2010

No. PFG(647)/02-Admn.-II—Consequent upon his promotion to the Senior Time Scale of the Indian Corporate Law Service in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in pursuance to the office order No. A-32011/1/2010-Admn.-II dated 28.04.2010, Shri Sanjay Yadav has assumed the charge to the post of Deputy Director, MCA headquarters with effect from 29.04.2010 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(469)/87-Admn.-II—Consequent upon his transfer vide office order No. A-22011/1/2009-Admn.-II dated 08.04.2010, Shri J. N. Tikku, a Junior Administrative Grade Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge to the post of Joint Director, MCA headquarters with effect from 27.04.2010 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(474)/89-Admn.-II—Consequent upon his transfer vide office order No. A-22011/1/2009-Admn.-II dated 28.04.2010, Shri B. K. L. Srivastava, a Senior Time Scale Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge to the post of Deputy Director, MCA headquarters with effect from 19.05.2010 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(446)/84-Admn.-II—Consequent upon his transfer vide office order No. A-22011/1/2009-Admn.-II dated 28.04.2010, Shri Naubat Singh, a Junior Administrative Grade Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge to the post of Joint Director, MCA headquarters with effect from 11.05.2010 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(657)/02-Admn.-II—Consequent upon his promotion to the Senior Time Scale of the Indian Corporate Law Service in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in pursuance to the office order No. A-32011/1/2010-Admn.-II dated 28.04.2010, Shri Raj Kumar Sah has assumed the charge to the post of Deputy Director, MCA headquarters with effect from 29.04.2010 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 6th July 2010

No. 27/2010 (A-32012/1/2009-E-I)—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 6/2/2009-CS-I dated 4th June 2010, for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2005 against Examination Quota, on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint the following regular Stenographers Grade 'C' (PA) to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce w.e.f. dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name & Date of Birth	Category	Date of Appointment
1.	Shri Sunil Singh Rawat (D.o.B. 29.09.1973)	Gen	15.06.2010 (FN)
2.	Shri Manoj Kumar (D.o.B. 21.07.1969)	SC	11.06.2010 (FN).
3.	Shri Sanjeev Thapliyal (D.o.B. 28.04.1973)	Gen	01.07.2010 (FN)

2. These appointments are subject to outcome of Court Case W.P.(C) No. 13245-60/2005 filed by Sh. Kailash Chander Vs. UOI pending in the Hon'ble High Court Delhi and Case No. OA-1083/2007 and MA No. 1171/2007 filed by Sh. Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in Hon'ble CAT Delhi.

ANURAG SAXENA, Director

No. 28/2010(A-32012/1/2009-E-I)—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 6/2/2009-CS-I dated 4th June 2010, for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2005 against Examination Quota, on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Sh. V. Surendra, (D.o.B. 14.02.1966) a regular Stenographer Grade 'A&B' (Merged) to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce w.e.f. 01.07.2010 (FN).

2. These appointments are subject to outcome of Court Case W.P.(C) No. 13245-60/2005 filed by Sh. Kailash Chander Vs. UOI, pending in the Hon'ble High Court, Delhi and Case No. OA-1083/2007 and MA No. 1171/2007 filed by Sh. Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in Hon'ble CAT, Delhi.

ANURAG SAXENA, Director

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 22nd July 2010

No. 19/2010 (.) F. No. A-46011/02/2010-Estt. (.)—On the basis of the recommendation made by the Departmental

Promotion Committee, the President is pleased to appoint Sh. Ashok Hazara and Sh. S. R. Dhanwadkar regular Assistant Directors Gr.-I (Technical) to the post of Deputy Directors (Technical) (Gr.-A Gazetted), in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 4th March, 2010 (FN), on promotion basis. They will be on probation from 04.03.2010 (F/N) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

BALBIR SINGH, Under Secy.

No. 20/2010 (.) F.No. A-46011/18/2005-Estt. (.)—On the basis of the recommendation made by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. Baluchamy Muniyandi and Sh. Sourabh Mukund Kulkarni to the post of Assistant Director Gr.-I (Technical) (Group 'A') Gazetted post, in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 10th December, 2008 (FN) and 5th March, 2009 (FN), respectively. They will be on probation for a period of one year from the dates of their joining which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

BALBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 8th July 2010

No. A-19011/2/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar, (ISS:1999) as Deputy Secretary in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals w.e.f. the forenoon of 2nd July, 2010 for a period of four years or until further orders.

V. K. MEHTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 13th July 2010

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Shashi Bala Verma, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on adhoc basis w.e.f. 28.06.2010 (AN) upto 31.12.2010 or until further order, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

- (ii) The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B. Ravichandran, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on adhoc basis w.e.f. 28.06.2010 (AN) upto 31.12.2010 or until further order, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and
- (ii) The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ram Kishore, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on adhoc basis w.e.f. 28.06.2010 (AN) upto 31.12.2010 or until further order, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and
- (ii) The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Sharma, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on adhoc basis w.e.f. 28.06.2010 (AN) upto 31.12.2010 or until further order, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and
- (ii) The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Narender Kumar, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on adhoc basis w.e.f. 28.06.2010 (AN) upto 31.12.2010 or until further order, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and
- (ii) The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 19th July 2010

No. A-12023/1/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Sinha, IAS (UP:83) as Joint Secretary in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. forenoon of 5th July, 2010 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

New Delhi, the 6th July 2010

No. A-22011/1/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Raghunath Singh, a regular Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as Section Officer on adhoc basis in the CSS cadre with effect from the forenoon of 30th June, 2010 till 31.12.2010, or till further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The period of adhoc promotion would be upto 31.12.2010 or till the regular Section Officer are made available, whichever is earlier;
- (ii) The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer grade of CSS;
- (iii) Adhoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the adhoc appointees not qualifying for regular

appointment in either of these two categories, the will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they join duty in their respective cadre units allotted to them by the Department;

- (iv) The effective date of adhoc promotion in respect of those found fit and clear from vigilance angle would be the date from which the officer concerned join duty in Section Officers' grade in his own cadre unit

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 20th July 2010

No. A-12011/6/2010-Estt.—In continuation of this Department's Office Order No. 63/2010 dated the 28th June 2010, the President is pleased to appoint Shri R Mathurbootham, former Director (Legal Metrology) as a full time Consultant for a period of 179 days i.e. from 15.07.2010 to 09.01.2011 on the terms and conditions contained in this Department's Office Order dated the 28th June, 2010 referred to above, on a monthly consolidated fee of Rs. 32,334/- (Rupees Thirty two thousand three hundred thirty four only) plus Rs. 3,000/- (Rupees three thousand only) as local Conveyance Allowance.

PREMA BHATT, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
New Delhi, the 19th July 2010

No. A-38012/3/2009-E-I—Shri Baboo Ram, Deputy Secretary of the CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation w.e.f. afternoon of 31st July, 2010.

B. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 28th June 2010

No. SM/01/05/2009—The President is pleased to place the following officers holding the post of Non-functional Second Grade of Superintending Surveyor/Deputy Director and Superintending Surveyor in Survey of India in the higher Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- of Director in that Department with effect from the date(s) mentioned against their names until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Placement
1.	Shri Shailesh Kumar Sinha	13.05.2010
2.	Shri Upendra Nath Misra	13.05.2010
3.	Shri Mohan Kumar Stalin(SC)	13.05.2010

NIRAJ KELA, Director

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH

New Delhi-110016, the 20th July 2010

No. A-12023/01/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Ramanuj Banerjee, Asstt. Superintendent of Live Stock, Haringhata Farm, Directorate of Animal Resources & Animal Health, Government of West Bengal as Scientist 'D' in the Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- on deputation basis with effect from the forenoon of 19th July 2010 for the period upto 25.11.2011 and until further orders, whichever is earlier.

2. The deputation of Dr. Ramanuj Banerjee to the Department of Scientific & Industrial Research will be regulated in accordance with the instructions of the Department of Personnel & Training contained in OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17th June 2010, as amended from time to time.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 17th June 2010

No. 17013/22/2008-IFS-II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists for promotion from State Forest Service of Assam to the Indian Forest Service for the years 2007, 2008 and 2009 prepared in the Selection Committee meeting held on 08.12.2009 containing the names of following officers of the State Forest Service of Assam towards filling-up of promotion quota vacancies available in Assam-Meghalaya Joint cadre of the Indian Forest Service :—

SELECT LIST OF 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Hem Kanta Talukdar	31.12.1961
2.	Shri Chitta Ranjan Bhabora	01.01.1956
3.	Shri Madhusudhan Sinha	30.09.1956

*No eligible candidates were available for selection against the Select Lists of 2007 and 2009.

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi-110003, the 28th June 2010

No. 23012/01/2001-IFS-II—Ms. Neha Gupta, an officer of the Indian Forest Service of 2005 batch borne on the Uttarakhand Cadre is permitted to change her name from

Ms. Neha Gupta to Mrs. Neha Verma after marriage. She will henceforth be known as Ms. Neha Verma for official purposes.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th July 2010

No. A-12025/05/2009-CHS-VI—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Meenakshi Panda as Dental Surgeon in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on probation and to post him as Dental Surgeon at C.G.H.S. (Delhi) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi with effect from the forenoon of 21st July, 2008 and until further orders.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FW

New Delhi, the 15th July 2010

No. A-32013/03/10-E.I—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List (part) of CSS for the year 2009 vide Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dt. 30th June, 2010, Sh. K. S. Nagi, Grade-I (Under Secretary) of the CSS, is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the Department of Health & Family Welfare with effect from 01.07.2010 (FN).

2. The promotions of Sh. K. S. Nagi is subject to final orders of Hon'ble CAT in OA No. 1864/2009 presently pending before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs. UoI & Ors.

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYUVEDA, YOGA AND
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 7th April 2010

No. A-19011/1/2010-Ayush (E-II)—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Office Order No. 5/4/2010-O.L. (Service) dated 15.3.2010 and Ministry of Women and Child Development Notification dated 31.3.2010, Shri J. L. Bhalla is appointed as Dy. Director (O.L.) in the Ministry of Health & Family Welfare, Deptt. of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) w.e.f. 1.4.2010 (FN).

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

The 30th April 2010

No. A-22012/1/99-Ayush/Estt-II—In pursuance of DoPT's Letter No. 5/2/2010-EO(SM-1) dated 29th April, 2010 Dr. Deo

Dutt Sharma, IFS (JH : 84) is appointed as Joint Secretary in the Department of AYUSH in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB : 4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for the balance period of his Central deputation tenure of five years i.e. upto 06.03.2012 from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier vice Shri B. Anand IAS (TN : 87).

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

The 23rd June 2010

No. A-19011/4/2010-Ayush (E-II)—In pursuance of DoPT's Order No. 5/1/2010-EO (MM-1) dated 4th June, 2010, Shri Vikram Singh Gaur, IFS (86) is appointed as Director in Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), under the M/o Health and Family Welfare from the date of taking over charge of the post of Director upto 05.06.2012 i.e. total of seven years admissible at the centre, or until further orders, whichever is earlier. Shri Vikram Singh Gaur, IFS (86) assumed charge of the office of the Director w.e.f. 7th June, 2010 (FN).

T. S. BHATIA, Dy. Secy.

The 24th June 2010

No. A-19011/2/2010/AYUSH/Estt-II—In pursuance of DoPT's Order No. 5.3.2010-CS-I(U) dated 26th May, 2010, the President is pleased to appoint the following Section officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-1 (Under Secretary) of CSS purely on adhoc basis in the Ministry of Health and Family Welfare, Department of AYUSH with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Sh. Chandra Shekhar	28.5.2010
2.	Smt. Jasmine James	01.6.2010

2. The appointment to Grade-1 (Under Secretary of CSS) are purely on adhoc basis for a period upto 31.5.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders. The above appointment is purely on adhoc basis and shall not confer any right of continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-1 of the CSS. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. The above appointment of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri S. P. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Others pending before the Hon'ble CAT, New Delhi.

T. S. BHATIA, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 16th July 2010

No. A-19011/11/2010-Admn.-I—The President is pleased to appoint Dr. Amarjit Singh Nanda, Director of Research, Guru Angad Dev University & Animal Sciences University, Ludhiana, Punjab, as Animal Husbandry Commissioner in the scale of pay of Rs. 67,000—79,000/- in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries w.e.f. the forenoon of 14th July, 2010 on deputation basis for a period of five years or till he attains the age of superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th June 2010

No. 4-8/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Sinha to the post of Under Secretary (Group 'A', CSS) in the Ministry of Women and Child Development in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 31.05.2010 (Afternoon).

2. This issues in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 26.5.2010.

K. K. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 9th June 2010

No. A-19011/4/2010-Estt.—Consequent on his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on adhoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders and posting in the the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training's order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26th May, 2010, Shri Surendra Patel has assumed the charge of Under Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 7th June, 2010.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 9th July 2010

No. A-12022/6/2006-Estt.—Consequent on his inclusion in the Select List of Section Officer's Grade of Central Secretariat Service for the year 2005 against seniority quota vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/1/2008-CS-I(S) dated 13.02.2009, the President is pleased to appoint Shri L. R. Pradhan, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service Cadre (Group 'B' Gazetted, Ministerial) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of Rs. 4,800/-) with effect from the forenoon of 20.06.2010.

2. Further, the appointment as above shall be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. OA-1083/2007 and MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. Union of India pending in CAT, Delhi.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 12th July 2010

No. A-12022/01/2010-Estt.-II—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Private Secretary Grade of the Central Secretariat Stenographer's Service for the year 2005 vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 5/7/2008-CS-II, dated 17th March, 2010, the President is pleased to appoint Shri Balbir Singh, working as Principal Private Secretary in the National Commission for Scheduled Tribes on adhoc basis, to the post of Principal Private Secretary in the National Commission for Scheduled Tribes in the Private Secretary Grade of the Central Secretariat Stenographer's Service on regular basis with effect from the forenoon of the 17th March, 2010.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 15th July 2010

No. A-19011/03/2009-Estt.-II—The President is pleased to repatriate Shri B. V. Gopala Reddy, IAS (MH : 94), Private Secretary to the Minister for Social Justice and Empowerment (Shri Mukul Wasnik) to the Govt. of Maharashtra with effect from the afternoon of the 26th June, 2010.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 22nd July 2010

No. A-22012/04/2009-Estt.-II—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Order No. 5/4/2010-OL(S) dated 25.06.2010, consequent on his promotion to the post of Joint Director of the Central Secretariat Official Language Service on adhoc basis, Shri Faquir Chand, formerly Deputy Director (Official Language) in the Ministry of Science and Technology, Department of Bio-Technology, is hereby taken on the strength of the Ministry of Social Justice and Empowerment against the post of Joint Director (Official Language), on adhoc basis, with effect from the forenoon of the 7th July, 2010.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th July 2010

No. A-22013/1/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2010/CS-I(U) dated 2nd July, 2010, the President is pleased to appoint

Shri S. K. Goel, Grade-I (Under Secretary) of CSS in the same capacity in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-3), Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 18th June, 2010 (FN).

K. D. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 26th July 2010

No. A-32011/1/09-MA—The President is pleased to appoint Capt. J. S. Uppal, Deputy Nautical Adviser to the post of Principal Officer (Nautical) in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP of Rs. 10,000/- in the Mercantile Marine Department, Kandla under the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 18.6.2010 (FN) until further orders.

A. R. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 8th July 2010

No. A-12025/1/2010-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 26.5.2010, the President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) as Under Secretaries in the Ministry of Road Transport & Highways, purely on adhoc basis in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay from the dates mentioned against their names below for a period upto 31.5.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as Under Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways on adhoc basis
1.	Shri Sushil Kumar Jha (CSL No. 6347)	28.05.2010 (A.N.)
2.	Shri Ramendra Pratap Shukla (CSL No. 6503)	04.06.2010 (F.N.)
3.	Shri Hari Ram Meena (CSL No. 6755)	02.06.2010 (F.N.)

2. The aforesaid adhoc appointment is subject to the following conditions :—

- The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- The appointment on adhoc basis may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor;
- The officers who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training within a period of six months;

- (iv) The adhoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Others pending before the CAT, New Delhi.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 5th July 2010

No. 16/2010 (F. No. 12/1/2010-Admn.-II)—On attaining the age of superannuation, Shri Virander Arora, Section Officer, Ministry of Power retired from Government Service in the afternoon of the 30th June, 2010.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 20th July 2010

No. 2/3/2009-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Prakash as Scientist 'B' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity in the Ministry of New and Renewable Energy with effect from the forenoon of 16th July, 2010 and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

No. 2/3/2009-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Karndhar Sanjay Gorelal as Scientist 'B' in the Pay band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity in the Ministry of New and Renewable Energy with effect from the forenoon of 14th July, 2010 and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

No. 2/3/2009-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Shobhit Srivastava as Scientist 'B' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity in the Ministry of New and Renewable Energy with effect from the forenoon of 15th July, 2010 and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st July 2010

No. 10/2010 (F. No. 2/7/2004-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Garg, IAS (UP : 90) as Joint

Secretary in the Ministry of Water Resources in Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay with effect from the forenoon of 01.07.2010, for a balance period of his Central Deputation Tenure i.e. up to 06.05.2013, or until further orders, whichever is earlier.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 22nd July 2010

No. 11/2010 (F. No. 3/3/2009-Estt)—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale Officers of the Central Water Engineering (Group 'A') Service, to the Senior Time Scale of the same service in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- (Pre-revised) on regular basis from the dates mentioned against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of appointment to the grade
	(S/Shri)	
1.	Amit Ranjan	08.01.2010 (F.N.)
2.	Amrish Pal Singh	07.01.2010 (A.N.)
3.	Rakesh Verma	29.04.2010 (F.N.)

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th July 2010

No. 5/1/2010-Admn.-II—In pursuance of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's Order No. P-3/2010, dated 7th July, 2010, issued from File No. 13016/3/2010-IES, Ms. Promodita, posted as Deputy Economic Adviser in the Ministry of Information & Broadcasting is hereby granted Non-Functional Selection Grade in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/-, with effect from 01.07.2010.

2. The grant of Non-Functional Selection Grade to Ms. Promodita is subject to the final outcome of the Civil Writ Petition No. 5953/2002 pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

3. Consequent to the grant of Non-Functional Selection Grade, Ms. Promodita is now designated as Additional Economic Adviser in this Ministry.

S. S. BEDI, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010